



# Media Coverage Report

May 2022



# PRINT



No.	Publication/Portal	Headline	Date
1.	The Hindu	Life insurance term plan premium	May 02, 2022
2.	The Bombay Samachar	PNB MetLife	May 04, 2022
3.	The Economic Times	Domestic Fund Dominate LIC's Anchor Allotment	May 04, 2022
4.	The Millenium Post	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors	May 04, 2022
5.	The Pioneer	LIC raises Rs 5,627 cr from anchor investors led by domestic institutions	May 04, 2022
6.	Dainik Navshakti	LIC raises Rs 5,627 cr from anchor investors led by domestic institutions	May 04, 2022
7.	The Hindu	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors	May 04, 2022
8.	The Tribune	LIC raises Rs 5,627 cr from anchor investors led by domestic firms	May 04, 2022
9.	The Pioneer	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors led by domestic firms	May 04, 2022
10.	Loksatta	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors led by domestic firms	May 04, 2022
11.	Maharashtra Times	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors led by domestic firms	May 04, 2022
12.	The Hans India	LIC garners Rs 5,627 cr from anchor investors, domestic institutions	May 04, 2022
13.	Hari Bhoomi	LIC garners Rs 5,627 cr from anchor investors, domestic institutions	May 04, 2022
14.	Loksatta	LIC garners Rs 5,627 cr from anchor investors, domestic institutions	May 04, 2022
15.	Veer Arjun	LIC garners Rs 5,627 cr from anchor investors, domestic institutions	May 04, 2022
16.	The Economic Times	Domestic Funds Dominate LIC's AnchorAllotment	May 04, 2022
17.	Hindustan Times	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors	May 04, 2022
18.	Loksatta	LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors	May 04, 2022
19.	The Pioneer	The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) organized	May 05, 2022
20.	The Hindu Business Line	Term Insurance Premium Tracker	May 08, 2022
21.	The Hindu Business Line	Term Insurance Premium Tracker	May 15, 2022
22.	Business Standard	PNB MetLife launches India's 1 <sup>st</sup> dental health insurance plan	May 17, 2022
23.	Free Press	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 17, 2022
24.	Jan Hitaishi	PNB MetLife launches India's 1 <sup>st</sup> dental health insurance plan	May 17, 2022

25.	Mayur Samvad	PNB MetLife launches India's 1 <sup>st</sup> dental health insurance plan	May 17, 2022
26.	Mint	PNB MetLife's dental care plan covers fixed-benefit outpatient expenses	May 17, 2022
27.	Palash News	PNB MetLife launches India's 1 <sup>st</sup> dental health insurance plan	May 17, 2022
28.	The Echo Of India	PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits	May 17, 2022
29.	The Free Press Journal	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 17, 2022
30.	The Goan	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 17, 2022
31.	Aaj	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 18, 2022
32.	Everyday News	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 18, 2022
33.	Herald Youngleader	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 18, 2022
34.	Janmadhyam	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 18, 2022
35.	Swatantra Bharat	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 19, 2022
36.	Business Standard	Homemakers, take cover: Must have a Rs 20-50-lakh term policy	May 19, 2022
37.	Nispaksh Divya Sandesh	PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan	May 20, 2022
38.	The Hindu Business Line	Term Insurance Premium Tracker	May 22, 2022
39.	The Financial Express	Dental Care Plan from PNB Met Life	May 23, 2022
40.	Forbes	Indian Brand Leadership Conclave 2022 by The Brand Story	May 27, 2022
41.	The Hindu	Life insurance term plan premium	May 30, 2022

<b>Publication : The Hindu</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 02, 2022</b>	<b>Page: 11</b>

<b>Life insurance term plan premium</b>			
<b>Male: 30 Years, Sum Insured - ₹1 crore, Cover up to - 70 Years</b>			
<b>Insurance company</b>	<b>Plan name</b>	<b>Maximum cover up to (Years)</b>	<b>Annual premium ₹</b>
LIC OF INDIA	Tech Term^	80	14,122
Aditya Birla Capital	Life Shield Plan	85	12,998
Aegon Life	iTerm Insurance Plan	100	9,114
Bajaj Allianz	Smart Protect Goal	85	10,911
Bharti AXA	Premier Protect Plan	75	11,092**
Canara HSBC OBC Life	iSelect Star Term Plan	99	11,605
HDFC Life	Click2Protect Plus	85	12,601
ICICI Prudential	iProtect Smart	99	15628
India First Life	e-Term Plan	80	8,260
Kotak Life Insurance	Kotak e-Term Plan	75	9,558
Max Life insurance	Smart Term Plan	85	11,800***
PNB Met Life	Mera Term Plan Plus	99	12,272
Reliance Nippon Life	Digi Term	80	11,012
SBI Life	eShield	80	15,070
TATA AIA Life	Maha Raksha Supreme	100	12,980

^Maximum policy term is 40 years | \*\*Bharti AXA coverage up to 65 years for age 30 years  
\*\*\*Max Life offers additional 5% discount for first year

<b>Publication : The Bombay Samachar</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 04, 2022</b>	<b>Page: 11</b>

## સ્મોલકેપ અને મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર ટકા સુધીનું ઘોવાણ, સેન્સેક્સ બે ટકા ગબડ્યો

મુંબઈ: અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વના કડક વલણ સાથે ઇન્ફલેશનમાં આવી રહેલા ઉછાળને કારણે નિકટ ભવિષ્યમાં માર્કેટમાં અકબ્રાહી જરૂરી રહેશે એવી નિષ્ણાતોની આગાહીઓને પગલે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં લાઈફ કેપ કરતા નાના રોકાણો વધુ ઘોવાણ નોંધાયા છે. સ્મોલ કેપ અને મિડકેપ શેરોના ઇન્ડેક્સમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર ટકા સુધીનું ઘોવાણ થયું છે જ્યારે સેન્સેક્સ બે ટકા ગબડ્યો છે.

બીએસઇ સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં ૧૦૯૫.૯૮ પોઇન્ટ અથવા તો ૩.૭૨ ટકા ગુમાવ્યા છે, જ્યારે મિડકેપ ઇન્ડેક્સે ૬૬૬.૧૦ પોઇન્ટ અથવા તો ૨.૬૬ ટકા ગુમાવ્યા છે. જ્યારે સેન્સેક્સ આ વર્ષે બીજી મે સુધીમાં ૧૨૭૭.૮૯ પોઇન્ટ અથવા તો ૨.૧૯ ટકા ગુમાવ્યા છે અને ત્રીજી તારીખે બજાર ઇધમી રજાને કારણે બંધ રહ્યું હતું. મહાનિ એનાલિસ્ટે ઇલાસ્ટ્રેશન ડેટા સેન્ટર અને મિડકેપ ઇન્ડેક્સના ચેર હાઇ રિસ્ક, હાઇ પ્રોફ, હાઇ ડિવન અને હાઇ ગ્રોથ/ટેકનોલોજી ધરાવતા હોય છે. બીજા શબ્દોમાં આ શેરોમાં નફા અને નુકસાનનું પ્રમાણ લાઈફ કેપ શેરો કરતા વધુ હોય છે. આથી જ્યારે મહાનિ ગબડે ત્યારે આ શેરોમાં વધુ ઘોવાણ થતું હોય છે. પછલા સપ્તાહના ડેટા જોઈએ તો સેન્સેક્સ પાછલા સપ્તાહના શુક્રવારના

૫૭,૧૯૭.૧૧ના બંધ સાથે ૧૩૬.૨૮ પોઇન્ટ્સ અથવા તો ૦.૨૪ ટકા ઘટ્યો હતો. જ્યારે બ્રોડ બેન્ડ ઇન્ડેક્સમાં મિડકેપ ઇન્ડેક્સ ૧.૧૪ ટકા, સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ ૨.૧૭ ટકા, બીએસઈ-૧૦૦ ઇન્ડેક્સ ૦.૪૪ ટકા, બીએસઈ-૨૦૦ ઇન્ડેક્સ ૦.૫૬ ટકા અને બીએસઈ-૫૦૦ ઇન્ડેક્સ ૦.૬૯ ટકા ઘટ્યા હતા. બજારના સાધનો જણાવે છે કે તાજેતરના સમયમાં શેરબજારને રેશિયા અને યુક્રેનના યુદ્ધને કારણે સંજોગો બૂરાજકીય તંત્રીલી, સતત વધતી ઇન્ફલેશન અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોની એકધારી વેચવાલી જેવા અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બજાર જ્યારે ઓલટાઇમ હાઇ હોય ત્યારે તેને પડવા માટે એક જ કારણ જોઈતું હોય છે અને આ વખતે એક્સામ્પટા એન્ક કારણો બેના થયા છે.

જોકે, જીએસટીની વસૂલીમાં વધારો, સારા માહકો ડેટાને કારણે થોડી રાહત છે અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો પણ સારો ટેકો આપી રહ્યાં છે. દેરાની નિહાસના ઓક્રા પણ સારા આયાં છે. ઝોપધોની નિહાસ પણ વધી છે. કોરોનાને કારણે પીછેહઠ બાદ હવે વૈશ્વિક સ્તરે બદામ સહિતની કૃષિચીજોની નિકાસ પણ વધી છે. બદામમાં અનેક પ્રોટીન અને વિટામિન્સ

હોવાથી અગાઉ વીએન્સ ૩ અને હવે ત્રીજી મેના દિવસને મધ્યે ૩ તરિકે ઉજવવાતો હોવાથી બદામની નિકાસ એકંદર વધી હતી. અમેરિકાના કૃષિ વિભાગ હેડ જ કેલિફોર્નિયામાં મોસ્ટ્રો સ્થિત નોન-પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેલિફોર્નિયા બદામ બોર્ડ બદામના વપરાસને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

આ બોર્ડમાં ૭૬૦૦થી વધુ બદામ ઉત્પાદક અને પ્રોસેસર્સ સભ્ય છે. કોપોરેટ હલવલમાં એલઆઇસીએ તેના આઇપીઓ પુલવાની તારીખ અગાઉ જ સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોની આગેવાની હેઠળના એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી રૂ. ૪૬.૨૭ કરોડ એન્કર કરી લીધા છે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને શેરટીક ૭.૯૪૯ના ભાવે શેર ફળવવા છે. આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુડિયલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ, એસબીઆઇ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ, કોટક મહિન્દ્રા લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ, પીએમબી મેટલાઇક, એસબીઆઇ પેન્શન ફંડ અને યુટીઆઇ સિયાટરમેન્ટ સોલ્યુશન પેન્શન ફંડ સ્કીમ પણ રોકાણ કરી રહી છે.

ધી નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (એનસીએલટી)એ કરજબ્રસ્ત જયદીપ યુપની માલિકીની શ્રી સિમેન્ટ સામે નાહલીને લગતી કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કંપનીએ આઇટીએફસી, ફર્સ્ટ બેન્ક, એચડીએફસી અને કુરર વેસ્ટ બેન્ક સહિત

અનેક બેન્ક પાસેથી લોન લીધી હતી અને ૨૦૧૨થી ૨૦૧૬ વચ્ચે તેનું વિતરણ કમું હતું.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨ના ચોથા ત્રિમાસિક સમયગાળામાં ફિંક ડિઝનો નફો ૧૮ ટકા વધીને ૨.૯૨૮ કરોડ રૂપિયા નોંધાયો છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧ ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ફિંક ડિઝનો નફો ૨.૪૮૧ કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો. મિલ્યુ કેમ પ્લાસ્ટ લિમિટેડે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨ના નાણાકીય પરિણામમાં વાર્ષિક તુલનાબદ્ધ ધોરણે ૧૧ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૨૬.૮૩ કરોડની ઇપીએલટીટીએ નોંધાવી છે, જ્યારે ૧૯ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૧૧.૫૧ કરોડનો કરવેરા પછીનો નફો નોંધાવ્યો છે.

બ્લો મોર્ટિગેજ, ઇન્જેકશન મોર્ટિગેજ અને કસ્ટમાઇઝડ મોર્ટિગેજની સોથી મોટી કંપનીઓમાંની એક એવી આ કંપનીએ ૪૪ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૨૫૮.૯૬ કરોડની રેવેન્યુ નોંધાવી છે. ચોથા ત્રિમાસિક સમયગાળામાં ટાટા યુપની કંપની ટાઇટનીનો યોગ્યો નફો સાત ટકાના ઘટાડા સાથે રૂ. ૫૨.૭ કરોડ નોંધાયો છે. જ્યારે વેબાણ ૧.૧૪ ટકાના ઘટાડા સાથે રૂ. ૭૨.૬ કરોડ નોંધાયું હતું. કુલ ૪.૨૫ ટકાના વધારા સાથે રૂ. ૭૮૭૨ કરોડના સરે પહોંચી હતી.

Publication : The Economic Times	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 9

**123 ANCHOR INVESTORS**

# Domestic Funds Dominate LIC's Anchor Allotment

**Our Bureau**

**Mumbai:** Domestic institutions dominated Life Insurance Corporation of India's anchor allotment before the initial public offering which opens for subscription on May 4. Out of the 123 anchor investors, 99 were domestic mutual funds, while the rest were domestic insurance funds and pension funds among others.

Six foreign funds participated in the exclusive share sale for institutional investors.

The company on Tuesday said

**59.3 million shares allotted to anchor investors at ₹949 each—the upper end of the price band for the IPO**



that it had raised ₹5,627 crore from anchor investors on Monday, ahead of an initial public offering — the largest public offer ever. The company said about 59.3 million shares were allotted to anchor investors at ₹949 each, the upper end of the price band for the IPO on Tuesday. The IPO, India's biggest, will close on May 9.

Societe Generale, the Government Pension Fund of Norway, the Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, BNP Investments and Ghisallo Master Fund were the foreign funds which participated in the anchor book.

About 42.17 million shares were allotted to 15 domestic mutual funds, including SBI, ICICI Prudential, HDFC, Aditya Birla, Axis, Nippon, and UTI. HCL Corporation, NPS Trust, PNB Metlife, and Bajaj Alliance General Insurance were some of the other anchor investors.

The government aims to raise ₹20,600 crore from investors through the IPO. Of the 221.37 million shares on offer, around 98.8 million are reserved for qualified institutional buyers, and 29.6 million for non-institutional buyers.

Publication : The Millenium Post	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 10

# LIC raises Rs 5,627 crore from anchor investors

**MPOST BUREAU**

**NEW DELHI:** Insurance behemoth LIC on Tuesday said it has garnered a little over Rs 5,627 crore from anchor investors led primarily by domestic institutions ahead of its mega initial public offering (IPO).

Anchor Investors' (AIs) portion (5,92,96,853 equity shares) was subscribed at Rs 949 per equity share, the insurer said in an early morning filing to exchanges.

Out of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12 per cent) were allocated to 15 domestic mutual funds through 99 schemes, the filing said.

Besides, investment was made by some domestic insurance companies and pension funds. Some of the prominent names in this category included ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund and UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme.

Foreign participation included Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, Government Pension Fund Global and BNP Investment LLP.

As per the prospectus, out of the 22.13 crore shares offered for sale, 5.93 crore shares were reserved for anchor investors.



**Anchor Investors' (AIs) portion (5,92,96,853 equity shares) was subscribed at Rs 949 per equity share, the insurer said.**

The government by diluting 3.5 per cent stake in LIC would raise Rs 21,000 crore, the biggest ever IPO in the Indian market. The previous such high fundraising was seen in the IPO of Paytm in 2021 at Rs 18,300 crore and Coal India in 2010 at Rs 15,200 crore.

The price band for LIC IPO is Rs 902-949 per equity share. Policyholders will get a discount of Rs 60 per equity share, while retail investors and employees will get a discount of Rs 45 on each share.

Of the total shares on offer, over 9.88 crore shares are reserved for qualified institutional buyers and over 2.96 crore shares for non-institu-

tional buyers. Up to 15,81,249 shares and 2,21,37,492 shares are reserved for employees and policyholders.

LIC would get listed and start trading on the stock exchanges on May 17.

LIC's embedded value, which is a measure of the consolidated shareholders' value in an insurance company, was pegged at about Rs 5.4 lakh crore as of September 30, 2021, by international actuarial firm Milliman Advisors.

Based on investor feedback, the market value of government-owned LIC has been pegged at 1.1 times its embedded value or Rs 6 lakh crore.

LIC was formed by merging and nationalizing as many as 245 private life insurance companies on September 1, 1956, with an initial capital of Rs 5 crore. Its product portfolio comprises 32 individual products (16 participating products and 16 non-participating products) and seven individual optional rider benefits. The insurer's group product portfolio comprises 11 group products.

As of December 2021, LIC had a market share of 61.6 per cent in terms of premiums or GWP, 61.4 per cent in terms of new business premium, 71.8 per cent in terms of the number of individual policies issued, and 88.8 per cent in terms of the number of group policies issued.

<b>Publication : The Pioneer</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 04, 2022</b>	<b>Page : 8</b>

## LIC raises Rs 5,627 cr from anchor investors led by domestic institutions

PNS ■ NEW DELHI

Insurance behemoth LIC on Tuesday said it has garnered a little over Rs 5,627 crore from anchor investors led primarily by domestic institutions ahead of its mega initial public offering (IPO).

Anchor Investors (AIs) portion (5,92,96,853 equity shares) was subscribed at Rs 949 per equity share, the insurer said in an early morning filing to exchanges.

Out of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12 per cent) were allocated to 15 domestic mutual funds

through 99 schemes, the filing said.

Besides, investment was made by some domestic insurance companies and pension funds. Some of the prominent names in this category included ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund and UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme.

Foreign participation included Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, Government Pension Fund Global and BNP Investment LLP.



As per the prospectus, out of the 22.13 crore shares offered for sale, 5.93 crore shares were reserved for anchor investors.

The government by diluting 3.5 per cent stake in LIC would

raise Rs 21,000 crore, the biggest ever IPO in the Indian market. The previous such high fundraising was seen in the IPO of Paytm in 2021 at Rs 18,300 crore and Coal India in 2010 at Rs 15,200 crore.

The price band for LIC IPO is Rs 902-949 per equity share.

Policyholders will get a discount of Rs 60 per equity share, while retail investors and employees will get a discount of Rs 45 on each share.

Of the total shares on offer, over 9.88 crore shares are reserved for qualified institutional buyers and over 2.96 crore shares for non-institutional buyers.

Publication : Dainik Navshakti	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 15

## अँकर गुंतवणूकदारांकडून ५,६२७ कोटी उभारले

सुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) समभागांना अँकर गुंतवणूकदारांकडून चोंगला प्रतिसाद मिळाला. या बाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेले विभागात ५,६२७ कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत. अँकर गुंतवणूकदारांचा हिस्सा (५,१२,९६,८५३ समभाग) ९४९ रुपये प्रति समभाग भरणा झाला, अशी माहिती एलआयसीने मंगळवारी सकाळी शेअर बाजाराला दिली.

५.९ कोटी शेअर्स वाटप करण्यात आले असून त्यापैकी अँकर गुंतवणूकदारांना ४.२ कोटी शेअर्स (७१.१२ टक्के)चे वाटप १५ देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सना ९९ योजनांमधून करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवजियन वेल्थ फंड नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट आणि सिंगापूर सॉर्व्हन वेल्थ फंड जीआयसी सह इतर अँकर गुंतवणूकदारांना किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ४ मे रोजी आयपीओ उघडण्यापूर्वी शेअर्स वाटप करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एकूण ५,६२० कोटी रुपयांचे शेअर अँकर गुंतवणूकदारांसाठी होते आणि ते सर्वच शेअर सब्सक्राइब झाले आहे. याशिवाय, काही देशांतर्गत विमा कंपन्या आणि पेंशन फंड्स यांनी गुंतवणूक केली. त्यातील काही प्रमुख नावांमध्ये आयसीआयसीआय ग्रुडन्सियल लाईफ इन्शुरन्स, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स, कोटक महिंद्रा लाईफ इन्शुरन्स, पीएमबी मेटलाईफ इन्शुरन्स, एसबीआय पेंशन फंड आणि यूटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स पेंशन फंड स्कीम यांचा समावेश आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये सिंगापूर सरकार, मॉनिटरी अँथॉरिटी ऑफ सिंगापूर, गव्हर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल आणि बीएनपी इन्व्हेस्टमेंट एलएलपी यांचा समावेश आहे.

एलआयसीच्या आयपीओमध्ये एकूण विक्री करण्यात येत असलेल्या भागीदारीपैकी ३.५ टक्केपैकी ५० टक्के पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (क्यूआयपी) साठी राखून ठेवलेली आहे. ज्यात अँकर गुंतवणूकदारांचाही समावेश आहे. क्यूआयपीसाठी आरक्षित समभागांपैकी ३५ टक्के अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव होते. प्रस्तावानुसार २२.१३ कोटी शेअर्स ऑफर फॉर सेलसाठी असून ५.९३ कोटी शेअर्स अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव होते.

## LIC raises ₹5,627 crore from anchor investors


Domestic MFs garner lion's share

PRESS TRUST OF INDIA  
NEW DELHI

Insurance behemoth LIC on Tuesday said it had garnered a little more than ₹5,627 crore from anchor investors led primarily by domestic institutions ahead of its mega initial public offering (IPO).

The anchor investors' (AIs) portion of 5,92,96,853 equity shares was subscribed at ₹949 per equity share, the insurer said in a filing with the stock exchanges. Of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12%) were allocated to 15 domestic mutual funds via 99 schemes, the firm said.

Investments were also



made by some domestic insurance firms and pension funds. Prominent names in this category included ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund and UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme.

## LIC raises ₹5,627 cr from anchor investors led by domestic firms

NEW DELHI, MAY 3

Insurance behemoth LIC on Tuesday said it has garnered a little over Rs 5,627 crore from anchor investors led primarily by domestic institutions ahead of its mega IPO.

Anchor Investors' (AIs) portion (5,92,96,853 equity shares) was subscribed at Rs 949 per equity share, the insurer said in an early morning filing to exchanges.

### MFS GET 71% SHARES

■ Out of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12%) were allocated to 15 domestic mutual funds through 99 schemes

Out of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12%) were allocated to 15 domestic

mutual funds through 99 schemes, the filing said.

Besides, investment was made by some domestic insurance companies and pension funds. Some of the prominent names in this category included ICICI Prudential Life, SBI Life, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund and UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme. —PTI

<b>Publication : The Pioneer</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
Date : May 04, 2022	Page: 10

## LIC raises ₹5,627 crore from anchor investors led by domestic institutions

PTI ■ NEW DELHI

Insurance behemoth LIC on Tuesday said it has garnered a little over Rs 5,627 crore from anchor investors

led primarily by domestic institutions ahead of its mega initial public offering (IPO).

Anchor Investors' (AIs) portion (5,92,96,853 equity shares) was subscribed at Rs 949 per equity share, the insurer said in an early morning filing to exchanges.

Out of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12 per cent) were allocated to 15 domestic mutual funds through 99 schemes, the filing said.

Besides, investment was made by some domestic insurance companies and pension funds. Some of the prominent names in this category included ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund and UTI

LIC was formed by merging and nationalising as many as 245 private life insurance companies on September 1, 1956, with an initial capital of Rs 5 crore

Retirement Solutions Pension Fund Scheme.

Foreign participation included Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, Government Pension Fund Global and BNP Investment LLP.

As per the prospectus, out of the 22.13 crore shares offered for sale, 5.93 crore shares were reserved for anchor investors.

The government by diluting 3.5 per cent stake in LIC would raise Rs 21,000 crore, the biggest ever IPO in the Indian market. The previous such high fundraising was seen in the IPO of Paytm in 2021 at Rs 18,300 crore and Coal India in 2010 at Rs 15,200 crore.

The price band for LIC

IPO is Rs 902-949 per equity share.

Policyholders will get a discount of Rs 60 per equity share, while retail investors and employees will get a discount of Rs 45 on each share.

Of the total shares on offer, over 9.88 crore shares are reserved for qualified institutional buyers and over 2.96 crore shares for non-institutional buyers.

Up to 15,81,249 shares and 2,21,37,492 shares are reserved for employees and policyholders.

LIC would get listed and start trading on the stock exchanges on May 17.

LIC's embedded value, which is a measure of the consolidated shareholders' value in an insurance company, was pegged at about Rs 5.4 lakh

crore as of September 30, 2021, by international actuarial firm Milliman Advisors.

Based on investor feedback, the market value of government-owned LIC has been pegged at 1.1 times its embedded value or Rs 6 lakh crore.

LIC was formed by merging and nationalizing as many as 245 private life insurance companies on September 1, 1956, with an initial capital of Rs 5 crore. Its product portfolio comprises 32 individual products (16 participating products and 16 non-participating products) and seven individual optional rider benefits. The insurer's group product portfolio comprises 11 group products.

As of December 2021, LIC had a market share of 61.6 per cent in terms of premiums or GWP, 61.4 per cent in terms of new business premium, 71.8 per cent in terms of the number of individual policies issued, and 88.8 per cent in terms of the number of group policies issued.

<b>Publication : Loksatta</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 04, 2022</b>	<b>Page: 11</b>

## एलआयसी : सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून ५,६२७ कोटींची निधी उभारणी

पीटीआय, नवी दिल्ली

बहुप्रतीक्षित भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीला सुकाणू गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यतः देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सोमवारी झालेल्या समभाग विक्रीत बोली लावून, सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी राखीव हिश्यातून ५,६२७ कोटी रुपये उभारण्यास योगदान दिले आहे. यापैकी सुमारे ४,००० कोटींचे योगदान हे देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून आले आहे.

केंद्र सरकारने त्यांच्या मूळ योजनेप्रमाणे पाच टक्क्यांऐवजी फक्त ३.५ टक्के भांडवली हिस्सा विकून या 'आयपीओ'मधून २१,००० कोटींचा निधी उभारू पाहत आहे.



सरकारच्या हिस्सा विक्रीत कपात झाली असली तरी देशाच्या भांडवली बाजारातील ही आजवरची सर्वात मोठी सार्वजनिक भागविक्री ठरणार आहे. कंपनीने भागविक्रीसाठी प्रतिसमभाग ९०२ रुपये ते ९४९ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांना बुधवारपासून (४ मे) पुढील सोमवार ९ मेपर्यंत यासाठी अर्ज करता येणार

आहे.

बाजारमंचाकडून उपलब्ध माहितीनुसार, सुकाणू गुंतवणूकदारांनी एलआयसीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ९०४ रुपये ते ९४९ रुपये या किंमतपट्ट्यातील कमाल पातळीला बोली लावत ५,९२ कोटी समभागांसाठी बोली लावली आहे. देशांतर्गत सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून या प्रक्रियेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला असून आघाडीच्या १५ म्युच्युअल फंड घराण्यांनी ७१.९२ टक्के म्हणजेच सुमारे ४.२ कोटी समभागांसाठी बोली लावली आहे. एलआयसीच्या 'आयपीओ'मध्ये विदेशातून गुंतवणूकदारांच्या सहभागाबाबत एकंदर साशंकता होतीच, त्याप्रमाणे सुकाणू

गुंतवणूकदारांमध्ये जवळपास ८० टक्के भरणा हा देशी गुंतवणूकदार संस्थांकडून झाला आहे.

देशांतर्गत विमा कंपनी आणि पेन्शन फंडांनी देखील गुंतवणूक केली आहे. या श्रेणीतील काही प्रमुख नावांमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल लाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स, कोटक महिंद्र लाइफ इन्शुरन्स, पीएनबी मेटालाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय पेन्शन फंड आणि वृ्डीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स पेन्शन फंड योजना यांचा समावेश आहे. तर परदेशी सुकाणू गुंतवणूकदारांमध्ये सिंगापूर सरकार, सिंगापूर चलन प्राधिकरण, गव्हर्नमेंट पेन्शन फंड ग्लोबल आणि वीएनपी इन्व्हेस्टमेंट एलएलपी यांचा समावेश आहे.

Publication : Maharashtra Times	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 8

## प्रमुख गुंतवणूकदारांकडून आयपीओत पाच हजार कोटींची गुंतवणूक

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

एलआयसीने प्राथमिक भागविक्री (आयपीओ) सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी खुली करण्यापूर्वी सोमवारी प्रमुख (अँकर) गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली. सोमवारच्या दिवशी या अँकर गुंतवणूकदारांनी सुमारे ५,६२७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक एलआयसीच्या समभागांमध्ये केली आहे. यामध्ये देशातील अँकर गुंतवणूकदार आघाजीवर राहिले आहेत.

भागविक्रीतून सरकार एलआयसीतील ३.५ टक्के हिस्सा कमी करणार असून त्याद्वारे २१ हजार कोटी रुपयांच्या उभारणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अँकर गुंतवणूकदारांनी त्यांच्यासाठी

राखीव ठेवलेले समभाग प्रति समभाग ९४९ रुपये या भावाने खरेदी केले आहेत.

एकूण ५,९२,९६,८५३ समभाग अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ४.२ कोटी, अर्थात ७१.१२ टक्के समभाग देशातील १५ म्युच्युअल फंडांच्या ९९ योजनांद्वारे खरेदी केले गेले.

देशातील विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांनी एलआयसीचे समभाग खरेदी करण्यात रस दाखवला. यामध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स, कोटक महिंद्र लाइफ इन्शुरन्स, पीएनबी मेटलाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय पेन्शन फंड आणि यूटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स पेन्शन फंड यांचा समावेश आहे.

<b>Publication : The Hans India</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
Date : May 04, 2022	Page: 6

## LIC garners ₹5,627 cr from anchor investors, domestic institutions

**Out of the allocation of over 5.9 crore shares to anchor investors (AIs), 4.2 crore shares (71.12%) are allocated to 15 domestic mutual funds through 99 schemes**

NEW DELHI

INSURANCE behemoth LIC on Tuesday said it has raised a little over Rs5,627 crore from anchor investors led primarily by domestic institutions ahead of its mega initial public offering (IPO). Anchor Investors' (AIs) portion (5,92,96,853 equity shares) was subscribed at Rs949 per equity share, the insurer said in an early morning filing to exchanges. Out of the allocation of about 5.9 crore shares to AIs, 4.2 crore shares (71.12 per cent) were allocated to 15 domestic mutual funds through 99 schemes, the filing said. Besides, investment was made by some domestic insurance companies and pension funds. Some of the prominent names in this category included ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund and UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme. Foreign par-



ticipation included Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, Government Pension Fund Global and BNP Investment LLP. As per the prospectus, out of the 22.13 crore shares offered for sale, 5.93 crore shares were reserved for anchor investors. The government by diluting 3.5 per cent stake in LIC would raise Rs 21,000 crore, the biggest ever IPO in the Indian market. The previous such high fundraising was seen in the IPO of Paytm in 2021 at Rs 18,300 crore and Coal India in 2010 at Rs 15,200 crore. The price band for LIC IPO is Rs 902-949 per equity share. Policyholders will get a discount of Rs 60 per equity share, while retail investors and employees will get a discount of Rs 45 on each share.

Publication : Hari Bhoomi	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 10

## एलआईसी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 5,627 करोड़

नई दिल्ली। बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एलआईसी ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने आईपीओ से पहले घरेलू संस्थानों की अगुवाई में एंकर निवेशकों से 5,627 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। बीमा कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि एंकर निवेशकों (एआई) के हिस्से (5,92,96,853 इक्विटी शेयर) को 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर पूरा अभिदान मिला। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक एआई को लगभग 5.9 करोड़ शेयरों के आवंटन में से 4.2 करोड़ शेयर (71.12 प्रतिशत) 15 घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए थे।

### इन कंपनियों ने किया निवेश

निवेश करने वाले घरेलू संस्थानों में आईसीआईसीआई पूंजिथियल लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्र लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस पेंशन फंड स्कीम शामिल है। विदेशी भागीदारों में सिंगापुर सरकार, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल और बीएनपी इन्वेस्टमेंट एलएलपी शामिल हैं।

Publication : Loksatta	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 14

## एलआयसी : सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून ५,६२७ कोटींची निधी उभारणी

पीटीआय, नवी दिल्ली

बहुप्रतीक्षित भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीला सुकाणू गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यतः देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सोमवारी झालेल्या समभाग विक्रीत बोली लावून, सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी राखीव हिश्यातून ५,६२७ कोटी रुपये उभारण्यास योगदान दिले आहे. यापैकी सुमारे ४,००० कोटींचे योगदान हे देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून आले आहे.

केंद्र सरकारने त्यांच्या मूळ योजनेप्रमाणे पाच टक्क्यांपेवजी फक्त ३.५ टक्के भांडवली हिस्सा विकून या 'आयपीओ'मधून २१,००० कोटींचा निधी उभारू पाहत आहे.



सरकारच्या हिस्सा विक्रीत कपात झाली असली तरी देशाच्या भांडवली बाजारातील ही आजवरची सर्वात मोठी सार्वजनिक भागविक्री ठरणार आहे. कंपनीने भागविक्रीसाठी प्रतिसमभाग ९०२ रुपये ते ९४९ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला आहे. किंमतपट्टा गुंतवणूकदारांना बुधवारपासून (४ मे) पुढील सोमवार ९ मेपर्यंत वासाटी अर्ज करता येणार

आहे.

वा ज्वरमंचांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, सुकाणू गुंतवणूकदारांनी एलआयसीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ९०४ रुपये ते ९४९ रुपये या किंमतपट्ट्यातील कमाल पातळीला बोली लावत ५,९२ कोटी समभागांसाठी बोली लावली आहे. देशांतर्गत सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून या प्रक्रियेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला असून आघाडीच्या १५ म्युच्युअल फंड घराण्यांनी ७१.९२ टक्के म्हणजेच सुमारे ४.२ कोटी समभागांसाठी बोली लावली आहे. एलआयसीच्या 'आयपीओ'मध्ये विदेशातून गुंतवणूकदारांच्या सहभागाबाबत एकंदर साशंकता होतीच, त्याप्रमाणे सुकाणू

गुंतवणूकदारांमध्ये जवळपास ८० टक्के भरणा हा देशी गुंतवणूकदार संस्थेकडून झाला आहे.

देशांतर्गत विमा कंपनी आणि पेंशन फंडांनी देखील गुंतवणूक केली आहे. या श्रेणीतील काही प्रमुख नावांमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल लाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स, कोटक महिंद्र लाइफ इन्शुरन्स, पीएनबी मेटालाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय पेंशन फंड आणि व्हीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स पेंशन फंड योजना यांचा समावेश आहे. तर परदेशी सुकाणू गुंतवणूकदारांमध्ये सिंगापूर सरकार, सिंगापूर चलन प्राधिकरण, गव्हर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल आणि बीएनपी इन्व्हेस्टमेंट एलएलपी यांचा समावेश आहे.

<b>Publication : Veer Arjun</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
Date : May 04, 2022	Page: 11

## एलआईसी ने घरेलू संस्थानों की अगुवाई में एंकर निवेशकों से 5,627 करोड़ जुटाए

नई दिल्ली, (भाषा)। बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एलआईसी ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने आईपीओ से पहले घरेलू संस्थानों की अगुवाई में एंकर निवेशकों से 5,627 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। बीमा कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि एंकर निवेशकों (एआई) के हिस्से (5,92,96,853 इड्रिटी शेयर) को 949 रुपये प्रति इड्रिटी शेयर पर पूरा अभिदान मिला।

शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक एआई को लगभग 5.9 करोड़ शेयरों के आवंटन में से 4.2 करोड़ शेयर (71.12 प्रतिशत) 15 घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए थे। ये आवंटन कुल 99 योजनाओं के माध्यम से किया गया। इसके

अलावा कुछ घरेलू बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा निवेश किया गया था। निवेश करने वाले घरेलू संस्थानों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस पेंशन फंड स्कीम शामिल हैं। विदेशी भागीदारों में सिंगापुर सरकार, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल और बीएनपी इनवेस्टमेंट एलएलपी शामिल हैं। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दस्तावेज के मुताबिक बिक्री के लिए पेश किए गए 22.13 करोड़ शेयरों में 5.93 करोड़ शेयर एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित थे।

## 123 ANCHOR INVESTORS

# Domestic Funds Dominate LIC's Anchor Allotment

**Our Bureau**

**Mumbai:** Domestic institutions dominated Life Insurance Corporation of India's anchor allotment before the initial public offering which opens for subscription on May 4. Out of the 123 anchor investors, 99 were domestic mutual funds, while the rest were domestic insurance funds and pension funds among others.

Six foreign funds participated in the exclusive share sale for institutional investors.

The company on Tuesday said that it had raised ₹5,627 crore from anchor investors on Monday, ahead



**59.3 million shares allotted to anchor investors at ₹949 each—the upper end of the price band for the IPO**

the Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, BNP In-

vestments and Ghisallo Master Fund were the foreign funds which participated in the anchor book.

of an initial public offering — the largest public offer ever: The company said about 59.3 million shares were allotted to anchor investors at ₹949 each, the upper end of the price band for the IPO on Tuesday. The IPO, India's biggest, will close on May 9.

Societe Generale, the Government Pension Fund of Norway, Societe Generale, the Government Pension Fund of Norway, the Government of Singapore, Monetary Authority of Singapore, BNP In-

vestments and Ghisallo Master Fund were the foreign funds which participated in the anchor book.

About 42.17 million shares were allotted to 15 domestic mutual funds, including SBI, ICICI Prudential, HDFC, Aditya Birla, Axis, Nippon, and UTI. HCL Corporation, NPS Trust, PNB Metlife, and Bajaj Alliance General Insurance were some of the other anchor investors.

The government aims to raise ₹20,600 crore from investors through the IPO. Of the 221.37 million shares on offer, around 98.8 million are reserved for qualified institutional buyers, and 29.6 million for non-institutional buyers.

Publication : Hindustan Times	Edition : Mumbai
Date : May 04, 2022	Page: 11

# LIC raises ₹5,627 crore from anchor investors

Press Trust of India  
feedback@livemint.com

**NEW DELHI:** Insurance behemoth Life Insurance Corporation of India (LIC) on Tuesday said it has garnered a little over ₹5,627 crore from anchor investors led primarily by domestic institutions ahead of its mega initial public offering (IPO).

The portion allotted to anchor investors of about 59.3 million equity shares, was subscribed at ₹949 per equity share, the insurer said in an early morning filing to exchanges. Of this, 42 million shares (71.12%) were allocated to 15 domestic mutual funds through 99 schemes, the filing said.

Some domestic insurance companies and pension funds also invested. These include ICICI Prudential Life Insurance, SBI Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance, PNB Metlife Insurance, SBI Pension Fund, and UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme. Foreign participation included the government of Singapore, the Monetary Authority of Singapore, Government Pension Fund Global, and BNP Investment LLP.

The government would raise ₹21,000 crore by offloading 3.5% stake in LIC, the biggest ever IPO in the Indian market. The previous such high fundraising was seen in the IPO of Paytm in 2021



The government by diluting 3.5% stake in LIC would raise ₹21,000 crore, the biggest ever IPO in the Indian market. MINT

at ₹18,300 crore and Coal India in 2010 at ₹15,200 crore.

The price band for the LIC IPO is ₹902-949 per equity share.

Policyholders will get a discount of ₹60 per equity share, while employees will get a discount of ₹45 on each share.

Of the total shares on offer, more than 98.8 million shares are reserved for qualified institutional buyers and more than 29.6 million shares for non-institutional buyers. Up to 15,81,249 shares and 2,21,37,492 shares are reserved for employees and policyholders.

LIC would start trading on the stock exchanges on May 17.

LIC's embedded value, a measure of the consolidated shareholders' value in an insur-

ance company, was pegged at about ₹5.4 lakh crore as of September 30, 2021, by international actuarial firm Milliman Advisors. LIC's market value has been pegged at 1.1 times its embedded value or ₹6 lakh crore.

Its product portfolio comprises 16 participating and 16 non-participating products and seven individual optional rider benefits. The insurer's group product portfolio comprises 11 group products.

As of December 2021, LIC had a market share of 61.6% in terms of GWP, 61.4% in terms of new business premium, 71.8% in terms of the number of individual policies issued, and 88.8% in terms of the number of group policies issued.

<b>Publication : Loksatta</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 04, 2022</b>	<b>Page: 7</b>

## ‘एलआयसी’त सुकाणू गुंतवणूकदार !

गौरव मुंडे

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’ने सुकाणू ( अँकर ) गुंतवणूकदारांकडून ५,६२७ कोटी रुपयांचा निधी सोमवारी ( २ मे ) उभारला. भारताच्या भांडवली बाजारतील सर्वात मोठ्या समभाग विक्रीसाठी ही दमदार सुरुवात निश्चितच. या पार्श्वभूमीवर सुकाणू गुंतवणूकदार कोण असतात, त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा का? त्यांचे ‘आयपीओ’मध्ये पैसा ओतण्यामागचे इंगित आणि गणिते काय, ते समजून घेऊ या.

### सुकाणू गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?

सुकाणू गुंतवणूकदार ( अँकर इन्व्हेस्टर ) म्हणजे थोडक्यात संस्थानिक गुंतवणूकदारच असतात. यामध्ये विविध गुंतवणूक कंपन्या, देश-विदेशातील म्युच्युअल फंड यांचा समावेश असतो. सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी प्रारंभिक समभाग विक्री ही इतरांच्या तुलनेत साधारणतः एक दिवस आधी सुरू होते. अर्थात सुकाणू गुंतवणूकदारांना त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या हिश्यामध्ये बोली लावण्यासाठी अग्रक्रम मिळतो. सुकाणू गुंतवणूकदारांना किमान १० कोटी रुपये गुंतवावे लागतात. तर संबंधित कंपनी भांडवली बाजारत सुचिवद्वारे झाल्याच्या ३० दिवसांपर्यंत तरी या गुंतवणूकदारांना समभाग विकता येत नाहीत.

### सुकाणू गुंतवणूकदार महत्त्वाचे का ?

कंपनीच्या समभागांना चांगली मागणी दाखवण्यासाठी सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी एक दिवस आधी समभाग विक्री केली जाते. त्यांच्यासाठी एकूण समभाग विक्रीतील काही समभाग राखून ठेवले जातात. सामान्यतः जर सुकाणू गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद मोठा असेल, तर त्यामुळे कंपनीच्या समभाग विक्रीला प्रोत्साहन मिळते. कारण ते इतर गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या समभागात पैसा टाकण्याचा संकेत देत असतात. त्याउलट या गुंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीकडे पाठ करणे हा नकारात्मक संकेत ठरतो. पात्र संस्थानिक गुंतवणूकदारांसाठी ( क्यूआयबी ) राखीव ठेवलेल्या हिश्यातून सुकाणू गुंतवणूकदारांना समभागांसाठी बोली लावता येते. यामध्ये सार्वभौम वेल्थ फंड, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड आणि विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार ( एफपीआय ) यासारख्या संस्थांचा समावेश असतो. यापैकी बहुतांश हे बाजार निव्वक्र ‘सेबी’कडे नोंदणीकृत असतात.

### या सुकाणू गुंतवणूकदारांना समभाग कधी आणि कसे मिळतात ?

प्रारंभिक समभाग विक्री सुरू होण्यापूर्वीच संभाव्य बड्या गुंतवणूकदारांचा कल आजमावणारी बोलणी सुरू होतात. प्रत्यक्षात कंपनीची प्रारंभिक समभाग विक्री सुरू होण्याच्या फक्त एक दिवस आधी सुकाणू गुंतवणूकदारांना अर्ज करता येतो. ‘एलआयसी’च्या बाबतीतही सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी सोमवारी ( २ मे ) समभाग विकण्यात आले. तर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी बुधवार, ४ मेपासून भागविक्री सुरू होणार आहे. सुकाणू गुंतवणूकदारांना कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या किंमतपट्ट्यातील सर्वांचे किंमत पातळीला समभाग विकले जाते. समभाग विक्रीची हाताळणी करणाऱ्या गुंतवणूक बँकेच्या माध्यमातून सुकाणू गुंतवणूकदारांची यादी निश्चित केली जाते.

### ‘एलआयसी’ला सुकाणू गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद किती, कोणाचा ?

‘एलआयसी’च्या २१,००० कोटीच्या देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओला सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुकाणू गुंतवणूकदारांनी ५,६२७ कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांसाठी अर्ज केले. सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी ५,९२ कोटी समभाग राखीव ठेवण्यात आले



होते. त्यापैकी ७१.९२ टक्के म्हणजेच सुमारे ४.२ कोटी समभाग देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून खरीदण्यात आले. शिवाय, काही देशांतर्गत विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांनी त्यात गुंतवणूक केली. या श्रेणीतील काही प्रमुख नावांमध्ये आयसीआयसीआय युईएनएल लाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स, कोटक मॉडर्न लाइफ इन्शुरन्स, पीएनबी मेटलाइफ इन्शुरन्स, एसबीआय पेन्शन फंड आणि व्हीटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन्स पेन्शन फंड योजना यांचा समावेश आहे. तर परदेशी सुकाणू गुंतवणूकदारांमध्ये सिंगापूर सरकार, सिंगापूरचे चलन प्राधिकरण, गव्हर्नमेंट पेन्शन फंड ग्लोबल आणि बोएनपी इन्व्हेस्टमेंट एलएलपी यांचा समावेश आहे.

### सुकाणू गुंतवणूकदारांच्या संख्येवर निर्बंध आहेत ?

आयपीओ बाजारात दाखल करणारी कंपनी २५० कोटीपेक्षा कमी निधी उभारणार असेल तर किमान पाच आणि कमाल १५ सुकाणू गुंतवणूकदारांना समभाग वाटप करणे वेध आहे. तर २५० कोटीपेक्षा अधिक निधी उभारणाऱ्यासाठी अतिरिक्त १० सुकाणू गुंतवणूकदारांना समभाग विक्रीची परवानगी देण्यात येते. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला किमान ५ कोटी रुपये मूल्याचे समभाग वाटप करणे आवश्यक आहे.

### ‘सेबी’चे नियंत्रण या सुकाणू गुंतवणूकदारांवर कसे असते ?

भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’कडून प्रारंभिक समभाग विक्रीतून उभारल्या जाणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबत नियम अधिक कठोर बनविले आहेत. अल्पावधीत कैक पटींनी परतावा गादीशी बांधून मोकळे होणाऱ्या सुकाणू ( अँकर ) गुंतवणूकदारांना विद्यमान ३० दिवसांपेवजी किमान ९० दिवसांपर्यंत गुंतवणूक राखून ठेवणे बंधनकारक करावे, असा विचारप्रवाह आहे. विशेषतः तंत्रज्ञानावर आधारित नावका, पॉलिग्रेसिव्हार किंवा झोमेटो यांसारख्या कंपन्यांमध्ये सुकाणू गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला आणि अल्पावधीत चांगला नफा कमावून ते बाहेरही पडले. सुकाणू गुंतवणूकदार विहित ३० दिवसांचा कालावधी पूर्ण करून बाहेर पडल्यानंतर समभाग मूल्यात मोठ्या प्रमाणावर घसरण अनुभववा सली आहे. त्यामुळे सुकाणू गुंतवणूकदार हे समभाग सुचिवद्वारेच्या ३० दिवसांनंतर ५० टक्के गुंतवणूकच विकू शकतील, तर उर्वरित ५० टक्के त्यांना ९० दिवस ओलांडल्यावरच त्यांना विकता येतील, असा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू करण्यात आला आहे.

उधराने का होईना पण बाजाराच्या विश्वासाहैतेसाठी आवश्यक ‘सेबी’चे पाऊल पडले आहे.

<b>Publication : The Pioneer</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 05, 2022</b>	<b>Page: 2</b>

## The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) organized

STAFF REPORTER ■ BHOPAL

To identify the top brands in various categories and recognising them for their significant contributions to making India stronger, The Brand Story organized The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) at ITC Sheraton, New Delhi.

On the gracious occasion, the Honourable Minister of State, Ministry of Steel and Rural Development, Government of India Faagan Singh Kulaste attended the event as the chief guest in the presence of other prominent attendees including Kabir Bedi, International Actor, and Author, Mr. Sameep Shastri, Chairman - Indian Institute of Governance & Leadership, and President - Confederation of Young Leaders, Vinit Goenka, Spokesperson -BJP Delhi Pradesh, and Author, and Laxmi Narayan Tripathi, Acharya Maha Mandleshwar, Kinnar Akhada, and Transgender Rights Activist made the grand evening even more special.

With a conscious theme "Embracing Change - The New Normal?" The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) proved to be an idle venue with insightful keynotes,

power-packed panel discussions, and a celebration of Indian brands and leaders.

Some of the prominent brands present during the conclave included Flamingo, BSE, Embassy Property Developments, Fenesta Building Systems, Indofil Industries, Tata Shaktee, The Bhawanipur Education Society College, MM Forging, PNB Metlife, StockEdge, BALCO, Oasis Group (All Seasons), DOLO 650, ONEOTT Entertainment, Bookmyjet, Pathkind Diagnostics, NEST-In (Tata Steel), Amadeus Labs, Evolis Card Printer India, Fortinet, The Narayana Group, Emirates Logistics India, Dazzle Sportswear, PAYTM, Vajro, Rapido, Penrod Ricard (Oaken Glow) and Coco Dry Fruits.

Top leaders including Abhijit Pati, CEO & Director, BALCO, Ms. Shibani Kashyap, Grace Pinto, prominent educationist & MD, Ryan International Group of Institutions, Geetha Nagpal, Vice-Chairperson, Krupanidhi Group of Institutions, Rajiv Mistry, Founder & MD, Ascent Meditech Ltd and representatives from People Strongshared their experiences and views on making the Indian economy more robust and resilient.

<b>Publication : The Hindu Business Line</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 08, 2022</b>	<b>Page : 9</b>

Term Insurance Premium Tracker						
For a 30-year-old male/female, non smoker, living in a metro city, Sum assured ₹1 crore with coverage up to 70 yrs						
Insurance company	Plan name	Max coverage up to (yrs)	Max policy term (yrs)	Annual Premium (₹) incl of GST		Claim Settlement Ratio (%)
				Male	Female	
Aditya Birla Capital	Digishield Plan	85	55	15,066	12,687	98.0
Bajaj Allianz	Smart Protect Goal	99*	81	12,626	10,793	98.5
Canara HSBC OBC Life	iSelect Star Term Plan	80	62	12,552	10,771	97.1
Edelweiss Tokio	Total Protect Plus	100	82	11,705	9,437	97.0
Exide	Smart Term Edge Comprehensive	60	30	17,178	14,904	98.5
HDFC Life	C2PL Life Protect	100	67	16,207	14,521	98.0
ICICI Prudential	iProtect Smart	99	81	17,190	15,164	97.9
India First Life	e-Term Plan	70	40	10,762	8,856	96.8
Kotak Life Insurance	Kotak e-Term Plan	75	57	11,918	10,266	98.5
LIC	Tech Term	80	40	14,122	11,838	NA
Max Life Insurance	Smart Secure Plus	85	67	14,317	11,958	99.4
PNB Met Life	Mera Term Plan Plus	99	81	13,452	11,328	98.2
SBI Life	eShield Next	85	67	17,233	14,434	94.5
TATA AIA Life	Sampoorn Raksha Supreme	100	82	16,411	13,683	98.0

Claim settlement ratio as per data provided by insurer Source: www.policybazaar.com, LIC  
 Max Life offers additional 5% discount for 1st year for salaried customers; \*Whole life available only on limited pay option; HDFC whole is available only in limited payterm(Life Protect) & Limited+Single payterm(Income Plus); NA: Not Available

<b>Publication : The Hindu Business Line</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 15, 2022</b>	<b>Page : 9</b>

Term Insurance Premium Tracker						
For a 30-year-old male/female, non smoker, living in a metro city, Sum assured ₹1 crore with coverage up to 70 yrs						
Insurance company	Plan name	Max coverage up to (yrs)	Max policy term (yrs)	Annual Premium (₹) incl of GST		Claim Settlement Ratio (%)
				Male	Female	
Aditya Birla Capital	Digishield Plan	85	55	15,066	12,687	98.0
Bajaj Allianz	Smart Protect Goal	99*	81	12,626	10,793	98.5
Canara HSBC OBC Life	iSelect Star Term Plan	80	62	12,552	10,771	97.1
Edelweiss Tokio	Total Protect Plus	100	82	11,705	9,437	97.0
Exide	Smart Term Edge Comprehensive	60	30	17,178	14,904	98.5
HDFC Life	C2PL Life Protect	100	67	16,207	14,521	98.0
ICICI Prudential	iProtect Smart	99	81	17,190	15,164	97.9
India First Life	e-Term Plan	70	40	10,762	8,856	96.8
Kotak Life Insurance	Kotak e-Term Plan	75	57	11,918	10,266	98.5
LIC	Tech Term	80	40	14,122	11,838	NA
Max Life Insurance	Smart Secure Plus	85	67	14,317	11,958	99.4
PNB Met Life	Mera Term Plan Plus	99	81	13,452	11,328	98.2
SBI Life	eShield Next	85	67	17,233	14,434	94.5
TATA AIA Life	Sampoorn Raksha Supreme	100	82	16,411	13,683	98.0

Claim settlement ratio as per data provided by insurer  
 Max Life offers additional 5% discount for 1st year for salaried customers; \*Whole life available only on limited pay option; HDFC whole is available only in limited payterm(Life Protect) & Limited+Single payterm(Income Plus); NA: Not Available

Source: www.policybazaar.com, LIC

## **PNB MetLife launches India's 1st dental health insurance plan**

PNB MetLife India Insurance Co on Monday launched a dental health insurance plan. This is the first insurance plan in India that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health, the company said in a statement.

PTI

<b>Publication : Free Press</b>	<b>Edition : Bhopal, Indore</b>
Date : May 17, 2022	Page: 6

## **PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan**

PNB MetLife India Insurance Co Ltd today launched PNB MetLife Dental Care Plan, its first standalone dental insurance plan, the life insurer said in a press release. The insurance plan covers fixed-benefit outpatient expenses ranging from 350-7,500 rupees per procedure and an assured sum of up to 50,000 rupees, in addition to financial assistance with costs related to overall dental health.

<b>Publication : Jan Hitaishi</b>	<b>Edition : Ahmedabad</b>
Date : May 17, 2022	Page: 4

### पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी

मुंबई, 16 मई, 2022- ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इनोवेशन की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है।

यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेमेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा

कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजर्स को कवर करता है।

एलाइड मार्केट रिसर्च के डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय दंत चिकित्सा बीमा उद्योग 2030 तक 3.65 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। इंडियन नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अनुसार, 90 प्रतिशत वयस्कों में ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं और ज्यादातर लोग मसूढ़ों का संक्रमण, क्षय, दांतों का गिरना, दांतों का ढीला होना और महत्वपूर्ण डेंटल इन्फेक्शन और वस्कुलर डेमेज के उपचार के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करते हैं। कई अध्ययनों में दंत स्वास्थ्य को मधुमेह और स्ट्रोक जैसे कुछ पुराने विकारों से भी जोड़ा गया है।

Publication : Mayur Samvad	Edition : Delhi
Date : May 17, 2022	Page: 6

## पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर

संवाददाता (दिल्ली)- ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इन्सुरेंस की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनुकूल योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेमेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजर्स को कवर करता है। एलाइड मार्केट रिसर्च के डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय दंत चिकित्सा बीमा उद्योग 2030 तक 3.65 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। इंडियन नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अनुसार, 90 प्रतिशत वयस्कों में ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं और ज्यादातर लोग मसूढ़ों का संक्रमण, क्षय, दांतों का गिरना, दांतों का ढीला होना और महत्वपूर्ण डेंटल इन्फेक्शन और वस्कुलर डेमेज के उपचार के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करते हैं। कई अध्ययनों में दंत स्वास्थ्य को

मधुमेह और स्ट्रोक जैसे कुछ पुराने विकारों से भी जोड़ा गया है। पीएनबी मेटलाइफ का नया डेंटल केयर प्लान ग्राहकों की अपनी डेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें दंत चिकित्सा के लिए अपने आवश्यक खर्चों में कमी करने और अपनी बचत राशि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, पीएनबी मेटलाइफ ने 340 से अधिक डेंटल क्लिनिकों के साथ करार किया है, जिसमें क्लोव डेंटल और सबका डेंटिस्ट शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों में क्लिनिकों के साथ भारत की दो सबसे बड़ी डेंटल क्लिनिक श्रृंखलाएं हैं, जहां पॉलिसीधारक उन्हें मिलने वाले सभी फायदों का आनंद ले सकते हैं। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, पीएनबी मेटलाइफ के एमडी और सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "जरूरी कौशल, विशेष बुनियादी ढांचे और बढ़ती महंगाई के कारण दंत उपचार लगातार महंगा होता जा रहा है। अपने दांतों का इलाज कराने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और जरूरी होने पर अपनी बचत का इस्तेमाल भी करते हैं। 'सर्किल ऑफ लाइफ' के अनुरूप पीएनबी मेटलाइफ में हम अपने ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं और पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।"

**विशेषताएं-**  
मेटलाइफ इंक के ग्लोबल डेंटल लीडरशिप द्वारा समर्थित इन्ोवेटिव प्रोडक्ट। रात भर अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी का सामना किए बिना बीमा तक पहुंच  
प्रति प्रोसीजर 350 से 7500 रुपए तक के निश्चित लाभ और 50,000 रुपए तक की बीमा राशि  
दंत चिकित्सा सेवा प्रदाताओं का विस्तृत नेटवर्क, और क्लोव डेंटल के साथ गठजोड़  
कैशलेस सुविधा और सरलीकृत दावा प्रक्रिया  
धारा 80डी के तहत कर लाभ  
विशिष्ट आउट पेमेंट और आकस्मिक दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निश्चित लाभ। यह प्लान बाजार में किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा प्लान का पूरक है, जैसे मेडिकलेम या गंभीर बीमारी, जिसमें दंत लाभ या तो बीमाकृत नहीं हैं या 24 घंटे के न्यूनतम अस्पताल में भर्ती होने के बाद भुगतान किया जाता है। एक प्रमुख वैश्विक जीवन बीमा प्रदाता, मेटलाइफ इंक. की वित्तीय मजबूती और दंत चिकित्सा बीमा विशेषज्ञता और भारत के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक की विश्वसनीयता और पहुंच से समर्थित, पीएनबी मेटलाइफ ने इस इन्ोवेटिव और ग्राहक-केंद्रित दंत चिकित्सा प्लान के साथ भारत का सबसे पसंदीदा डेंटल इश्योरेंस प्रोवाइडर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

**डेंटल केयर प्लान की मुख्य**

## PNB MetLife's dental care plan covers fixed-benefit outpatient expenses

Navneet Dubey  
navneet.d@livemint.com

**P**NB MetLife India Insurance Co Ltd has launched a dental care plan—India's first insurance plan that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health.

As per the insurer, this is a one-of-a-kind, standalone dental health insurance plan that covers major dental procedures without the hassles of hospitalization, said the firm.

"PNB MetLife Dental Care Plan will help customers manage their dental health and ensure they do not have to dive into their savings or reduce their essential spending in order to make space for dental treatment," the company said in a release.

PNB MetLife has tied up with more than 340 dental clinics, including Clove Dental and Sabka Dentist, two of India's largest dental clinic chains with clinics across key cities in India, where policyholders can enjoy the full value of their benefits.

Ashish Kumar Srivastava, managing director and chief executive officer, PNB MetLife, said: "Dental treatment is expensive due to the requisite skill, specialized infrastructure, and impact of inflation. People spend a lot of money and pay-out of their own pockets for dental procedures."

The plan offers access to insurance without having to face the hassles of overnight hospitalization.

The PNB MetLife Dental Care Plan also offers fixed benefits ranging from ₹350-7,500



per procedure and a sum assured of up to ₹50,000. The plan also comes with a cashless facility and policyholders can avail of tax benefit exceptions under section 80D of the Indian Income Tax Act.

Note that the dental care plan pays fixed benefits for the specific outpatient and acci-

dental dental procedures.

Data from Allied Market Research indicates that the Indian dental insurance industry would be worth \$3.65 billion by 2030. According to the Indian National Oral Health Survey, 90% of adults have oral health issues and most dental visits are for treatment of dental problems such as gum infection, decay, tooth loss, loosening of teeth, and significant dental infection and vascular damage. Several studies have even linked dental health to some chronic disorders such as diabetes and stroke.

This plan complements any current health insurance plan in the market, such as mediclaim or critical illness, in which the dental benefits are either uninsured or paid after minimum hospitalization of 24 hours.

Publication : Palash News	Edition : Ahmedabad
Date : May 17, 2022	Page: 3

## पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी

**पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान रात भर अस्पताल में भर्ती हुए बिना बीमा तक पहुंच**

मुंबई, 16 मई, 2022- ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इनोवेशन की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अनूठी योजना है।

यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेशेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान

अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजर्स को कवर करता है।

एलाइड मार्केट रिसर्च के डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय दंत चिकित्सा बीमा उद्योग 2030 तक 3.65 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। इंडियन नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अनुसार, 90 प्रतिशत वयस्कों में ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं और ज्यादातर लोग मसूदों का संक्रमण, क्षय, दांतों का गिरना, दांतों का ढीला होना और महत्वपूर्ण डेंटल इन्फेक्शन और वस्क्युलर डेमेज के उपचार के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करते हैं। कई अध्ययनों में दंत स्वास्थ्य को मधुमेह और स्ट्रोक जैसे कुछ पुराने विकारों से भी जोड़ा गया है।

पीएनबी मेटलाइफ का नया डेंटल केयर प्लान ग्राहकों को अपनी डेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद करेगा और

यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें दंत चिकित्सा के लिए अपने आवश्यक खर्चों में कमी करने और अपनी बचत राशि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पीएनबी मेटलाइफ ने 340 से अधिक डेंटल क्लीनिकों के साथ करार किया है, जिसमें क्लोव डेंटल और सबका डेंटिस्ट शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों में क्लीनिकों के साथ भारत की दो सबसे बड़ी डेंटल क्लिनिक श्रृंखलाएं हैं, जहां पॉलिसीधारक उन्हें मिलने वाले सभी फायदों का आनंद ले सकते हैं।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, पीएनबी मेटलाइफ के एमडी और सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "जरूरी कौशल, विशेष बुनियादी ढांचे और बढ़ती महंगाई के कारण दंत उपचार लगातार महंगा होता जा रहा है।

Publication : The Echo Of India

Edition : Kolkata

Date : May 17, 2022

Page: 10

## PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits

**EOI CORRESPONDENT**

**MUMBAI, MAY 16/--** With customer centricity as the cornerstone for all innovation at PNB MetLife India Insurance Co., Ltd., (PNB MetLife), the leading life insurer today launched the PNB MetLife Dental Care Plan, a unique plan to address the emerging needs of the customer of today. This is the first insurance plan in India that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health. This launch reinforces PNB MetLife leadership in the industry with this one-of-a-kind, standalone, dental health insurance plan that covers major dental procedures without the hassles of hospitalization, sources informed.

Data from Allied Market Research indicates that the Indian dental insurance industry would be worth USD3.65 billion by 2030. According to the Indian National Oral Health Survey, 90% of adults have oral health issues and most dental visits are for treatment of dental problems such as gum infection, decay, tooth loss, loosening of teeth, and significant dental infection and vascular damage. Several studies have even linked dental health to some chronic disorders such as diabetes and stroke. PNB MetLife's new Dental Care Plan will help customers manage their dental health and ensure they do not have to dive into their savings or reduce their essential spending in order to make space for dental treatment. To provide convenience to its customers, PNB MetLife has tied up with more than 340+ dental clinics, including Clove Dental and Sabka Dentist, two of India's largest dental clinic chains with clinics across key cities in India, where policyholders can enjoy the full value of their benefits, sources said.

Commenting on the launch, Ashish Kumar Srivastava, MD & CEO, PNB MetLife, said, "Dental treatment is expensive due to the requisite skill, specialized infrastructure, and impact of inflation. People spend a lot of money and pay out of their own pockets for dental procedures. Aligned to the 'Circle of Life' ethos, we, at PNB MetLife, aim to meet the different financial needs of our customers and PNB MetLife Dental Care is a step towards the right direction."

<b>Publication : The Free Press Journal</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
Date : May 17, 2022	Page: 6

## **PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan**

PNB MetLife India Insurance Co Ltd today launched PNB MetLife Dental Care Plan, its first standalone dental insurance plan, the life insurer said in a press release. The insurance plan covers fixed-benefit outpatient expenses ranging from 350-7,500 rupees per procedure and an assured sum of up to 50,000 rupees, in addition to financial assistance with costs related to overall dental health.

<b>Publication : The Goan</b>	<b>Edition : Goa</b>
Date : May 17, 2022	Page: 6

### **PNB MetLife launches PNB MetLife Dental Care Plan**

PNB MetLife India Insurance Co Ltd today launched PNB MetLife Dental Care Plan, its first standalone dental insurance plan, the life insurer said in a press release. The insurance plan covers fixed-benefit outpatient expenses ranging from 350-7,500 rupees per procedure and an assured sum of up to 50,000 rupees, in addition to financial assistance with costs related to overall dental health.

Publication : Aaj	Edition : Lucknow
Date : May 18, 2022	Page: 9

### पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली कंपनी

मुम्बई। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पीएनबी मेटलाइफ ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित लाभ वाले आउट पेशेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजर्स को कवर करता है।

<b>Publication : Everyday News</b>	<b>Edition : Lucknow</b>
Date : May 18, 2022	Page: 8

**पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी  
बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर  
प्लान लॉन्च करने वाली पहली  
जीवन बीमा कंपनी बनी**

लखनऊ। ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इनोवेषन की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेशेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है।

Publication : Herald Youngleader	Edition : Ahmedabad
Date : May 18, 2022	Page: 7

## पीएनबी मेटलाइफ ने डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया

ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इनोवेषन की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेशेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजर्स को कवर करता है।

एलाइड मार्केट रिसर्च के डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय दंत चिकित्सा बीमा उद्योग 2030 तक 3.65 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। इंडियन नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अनुसार, 90 प्रतिशत वयस्कों में ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं और ज्यादातर लोग मसूढ़ों का संक्रमण, क्षय, दांतों का गिरना, दांतों का ढीला होना और महत्वपूर्ण डेंटल इन्फेक्शन और वस्क्युलर डेमेज के उपचार के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करते हैं। कई अध्ययनों में दंत स्वास्थ्य को मधुमेह और स्ट्रोक जैसे कुछ पुराने विकारों से भी जोड़ा गया है।

पीएनबी मेटलाइफ का नया डेंटल केयर प्लान ग्राहकों को अपनी डेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें दंत चिकित्सा के लिए अपने आवश्यक खर्चों में कमी करने और अपनी बचत राशि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पीएनबी मेटलाइफ ने 340 से अधिक डेंटल क्लिनिकों के साथ करार किया है, जिसमें क्लोव डेंटल और सबका डेंटिस्ट शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों में क्लिनिकों के साथ भारत की दो सबसे बड़ी डेंटल क्लिनिक श्रृंखलाएं हैं, जहां पॉलिसीधारक उन्हें मिलने वाले सभी फायदों का आनंद ले सकते हैं।

<b>Publication : Janmadhyam</b>	<b>Edition : Lucknow</b>
Date : May 18, 2022	Page: 7

### **पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर**

#### **प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी**

**नई दिल्ली।** ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इनोवेशन की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेशेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजर्स को कवर करता है। एलाइड मार्केट रिसर्च के डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय दंत चिकित्सा बीमा उद्योग 2030 तक 3.65 बिलियन अमरीकी डॉलर का होगा। इंडियन नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अनुसार, 90 प्रतिशत वयस्कों में ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं और ज्यादातर लोग मसूड़ों का संक्रमण, क्षय, दांतों का गिरना, दांतों का ढीला होना और महत्वपूर्ण डेंटल इन्फेक्शन और वस्वयुलर डेमेज के उपचार के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करते हैं।

<b>Publication : Swatantra Bharat</b>	<b>Edition : Lucknow</b>
Date : May 19, 2022	Page: 10

पीएनबी मेटलाइफ: पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेशेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

<b>Publication :</b> Business Standard	<b>Edition :</b> All
<b>Date :</b> May 19, 2022	<b>Page :</b> 2

# Homemakers, take cover: Must have a ₹20-50-lakh term policy

Declaring any form of income, like rent, homemaker earns can help her get a higher sum assured

**BINDISHA SARANG**

In India, the breadwinner of the family usually purchases a life insurance cover for himself. Most homemakers remain uninsured. However, things are beginning to change now.

A recent online survey of 5,000 respondents conducted by PolicyBazaar in April found that around 15 per cent of the active policies are independent term plans meant for homemakers.

Independent term plans targeting homemakers have become available only recently.

### Few homemakers covered

Households generally ignore the need to buy a term cover for the homemaker because they underestimate her contribution.

Sajja Praveen Chowdhary, business head-term life insurance, PolicyBazaar, says, "In India, a person's economic contribution is measured solely in terms of financial earnings.

Since homemakers don't earn an income, their contribution is vastly underestimated."

But a homemaker's contribution does have economic value. She manages the household and takes care of domestic finances. She is the primary childcare provider. In many households, she also looks after the elderly, and even cooks for the family.

As V Viswanand, deputy managing director, Max Life Insurance, says, "A woman's contribution as homemaker is essential and irreplaceable."

Experts say if one were to ascribe an economic value to all the contributions a homemaker makes, it would easily amount to

### COST OF COVER FOR A HOMEMAKER

Premium rates are for a 40-year-old woman

Insurer	Plan	Sum insured (₹ lakh)	Premium (₹)	Cover till age (years)
Max Life	Smart Secure Plus*	50	936	85
Tata AIA	Sampoorna Raksha Supreme POS*	50	1,344	65
ICICI Prudential	iProtect Smart	50	900	99
Kotak Life	Kotak e-Term Plan	25	561	75
PNB MetLife	Saral Jeevan Bima	25	711	70
India First	Life	10	295	70

\*Husband's existing life cover not required

Source: PolicyBazaar

₹45,000-50,000 per month in the case of an average middle-class family in urban India.

### Add-on to spouse's cover

Currently, most plans offering term cover to homemakers do so typically as an add-on to the earning spouse's cover.

Kapil Mehta, co-founder, SecureNow Insurance Broker, says, "Life insurance options for homemakers are restricted. If both the earning spouse and the homemaker buy life insurance together, then the latter's sum assured is restricted to 50 per cent of the former's sum assured."

Due to this 50 per cent limit, the spouse must buy a life cover of at least ₹1 crore to allow the homemaker to buy a

decent cover.

Life insurers say they limit the sum assured offered to homemakers to prevent the risk of moral hazard. In the past, many cases have occurred where the husband purchased a high-value cover for the wife, only to murder her later for the insurance money.

### Limited standalone covers available

Only a few insurers offer an independent, standalone term plan for homemakers. One is Tata AIA Life and the other is Max Life Insurance. The latter offers a cover to homemakers aged between 18 and 50 years. If the homemaker is a graduate, and the household

income is at least ₹5 lakh, then the homemaker can buy a term cover of ₹50 lakh.

"This policy has completely removed the homemaker's dependency on the spouse's income," says Chowdhary.

### What should homemakers do

Homemakers should first try to get a term cover.

Dilshad Billimoria, board member, Association of Registered Investment Advisers, says, "A plain vanilla term plan is the best form of insurance."

If a homemaker is unable to get it, she may purchase a low-premium endowment policy. Most other forms of insurance-cum-investment products should be avoided as they will not be able to offer sufficient cover at a cost-effective premium.

The homemaker should purchase at least a ₹20-50 lakh insurance cover. Experts say that if the children are young, the spouse will need at least ₹4-6 lakh a year for their care for the next 10 years, until they become independent.

"When buying a term cover for the homemaker, ensure that the coverage lasts for as long as she has the capacity to work," says Billimoria.

While purchasing a policy, a homemaker should make the right declarations.

"Declare clearly that you are a homemaker. Also, if you have any financial income, such as rental income, declare it. This could help enhance the sum assured offered to you," adds Mehta.



Publication : Nispaksh Divya Sandesh	Edition : Lucknow
Date : May 20, 2022	Page: 11

## पीएनबी मेटलाइफ का डेंटल केयर प्लान लॉन्च

### एनडीएस संवाददाता

**लखनऊ।** ग्राहकों को केंद्र में रखते हुए इनोवेशन की दिशा में लगातार कदम उठाते हुए अग्रणी जीवन बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएनबी मेटलाइफ) ने पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान लॉन्च किया है, जो कि आज के ग्राहक की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक अनूठी योजना है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित-लाभ वाले आउट पेमेंट संबंधी खर्चों को कवर करती है और ओवरऑल डेंटल हेल्थ से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस बीमा प्लान के साथ पीएनबी मेटलाइफ डेंटल ओपीडी बेनिफिट्स के साथ डेंटल केयर प्लान लॉन्च करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यह पहला स्टैंडअलोन डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी के बिना प्रमुख डेंटल प्रोसीजरस को कवर करता है। एलाइड मार्केट रिसर्च के डेटा से संकेत मिलता है कि भारतीय दंत चिकित्सा बीमा उद्योग



2030 तक 3.65 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। इंडियन नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अनुसार, 90 प्रतिशत वयस्कों में ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं और ज्यादातर लोग मसूढ़ों का संक्रमण, क्षय, दांतों का गिरना, दांतों का ढीला होना और महत्वपूर्ण डेंटल इन्फेक्शन और वस्कुलर डेमेज के उपचार के लिए डेंटिस्ट से संपर्क करते हैं। कई अध्ययनों में दंत स्वास्थ्य को मधुमेह और स्ट्रोक जैसे कुछ पुराने विकारों से भी जोड़ा गया है। पीएनबी मेटलाइफ का नया डेंटल केयर प्लान ग्राहकों को अपनी डेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद करेगा और

यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें दंत चिकित्सा के लिए अपने आवश्यक खर्चों में कमी करने और अपनी बचत राशि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पीएनबी मेटलाइफ ने 340 से अधिक डेंटल क्लीनिकों के साथ करार किया है, जिसमें क्लोब डेंटल और सबका डेंटिस्ट शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों में क्लीनिकों के साथ भारत की दो सबसे बड़ी डेंटल क्लिनिक श्रृंखलाएं हैं, जहां पॉलिसीधारक उन्हें मिलने वाले सभी फायदों का आनंद ले सकते हैं।

<b>Publication : The Hindu Business Line</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 22, 2022</b>	<b>Page : 9</b>

Term Insurance Premium Tracker						
For a 30-year-old male/female, non smoker, living in a metro city, Sum assured ₹1 crore with coverage up to 70 yrs						
Insurance company	Plan name	Max coverage up to (yrs)	Max policy term (yrs)	Annual Premium (₹) incl of GST		Claim Settlement Ratio (%)
				Male	Female	
Aditya Birla Capital	Digishield Plan	85	55	15,066	12,687	98.0
Bajaj Allianz	Smart Protect Goal	99*	81	12,626	10,793	98.5
Canara HSBC OBC Life	iSelect Star Term Plan	80	62	12,552	10,771	97.1
Edelweiss Tokio	Total Protect Plus	100	82	11,705	9,437	97.0
Exide	Smart Term Edge Comprehensive	60	30	17,178	14,904	98.5
HDFC Life	C2PL Life Protect	100	67	16,207	14,521	98.0
ICICI Prudential	iProtect Smart	99	81	17,190	15,164	97.9
India First Life	e-Term Plan	70	40	10,762	8,856	96.8
Kotak Life Insurance	Kotak e-Term Plan	75	57	11,918	10,266	98.5
LIC	Tech Term	80	40	14,122	11,838	NA
Max Life Insurance	Smart Secure Plus	85	67	14,317	11,958	99.4
PNB Met Life	Mera Term Plan Plus	99	81	13,452	11,328	98.2
SBI Life	eShield Next	85	67	17,233	14,434	94.5
TATA AIA Life	Sampoorn Raksha Supreme	100	82	16,411	13,683	98.0

Claim settlement ratio as per data provided by insurer Source: www.policybazaar.com, LIC  
 Max Life offers additional 5% discount for 1st year for salaried customers; \*Whole life available only on limited pay option; HDFC whole is available only in limited payterm(Life Protect) & Limited+Single payterm(Income Plus); NA: Not Available

<b>Publication :</b> The Financial Express	<b>Edition :</b> All
<b>Date :</b> May 23, 2022	<b>Page:</b> 10

**SMART MONEY**

**GENERAL INSURANCE**  
**Professional indemnity insurance for doctors**  
 ICICI LOMBARD HAS launched Professional Indemnity Insurance for doctors. It offers coverage against legal liabilities such as defense costs incurred during investigation, cost of representation, and compensation for claims arising out of injury or death caused due to error, omission and negligence. It will provide coverage against invalid claims where there is no fault of the practitioner by covering legal fees and settlement compensation to be paid against claims awarded by the court, or in cases of malpractice allegations and legal suit due to breach of confidentiality allegations.

**HEALTH INSURANCE**  
**Dental Care Plan from PNB Met Life**  
 PNB METLIFE INDIA Insurance has launched PNB MetLife Dental Care Plan that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health. To provide convenience to its customers, the insurer has tied up with over 340 dental clinics where policyholders can enjoy fixed benefits of ₹350-₹7,500 per procedure and a sum assured of up to ₹50,000.

**LIFE INSURANCE**  
**Max Life Insurance launches ESG fund**  
 MAX LIFE INSURANCE has launched Max Life Sustainable Equity Fund, a pure-equity ESG fund to encourage investments in companies that focus on environmental, social, and governance factors. Linked with the Nifty ESG 100 Index, this actively managed fund promotes ESG principles focusing on stocks that form part of benchmark ESG indices and investing in companies with high ESG scores.

**INVESTING**  
**Non-convertible debentures from Navi Finserv**  
 NAVI FINSERV has launched secured redeemable non-convertible debentures (NCDs) amounting to ₹600 crore with a base issue of ₹300 crore. The tenure of the NCD is 18-27 months with an effective yield of up to 9.80%. The minimum amount of investment will be ₹10,000. The issue will open for subscription on May 23 and will close on June 10. The proposed NCDs is rated A (Stable) by India Ratings.

**GOLD LOANS**  
**Doorstep gold loans on weekends**  
 INDIAGOLD HAS RECENTLY introduced doorstep gold loans on weekends. The potential borrower can download the App, visit the website indiagold.co, or give a missed call on 1800-123-999-888 to book an appointment with a loan manager, free of charge, from the comfort of their home. The manager then visits the borrower's house, appraises them of the suitable schemes, and completes all formalities digitally within 30 minutes. After this, the gold is collected with 100% insurance and safety assurance by the team, and the loan is processed with immediate effect.

<b>Publication : Forbes</b>	<b>Edition : National</b>
<b>Date : May 27, 2022</b>	<b>Page: 47</b>

BRAND CONNECT

## INDIAN BRAND LEADERSHIP CONCLAVE 2022 by THE BRAND STORY



The Brand Story recently organized **The Indian Brand and Leadership Conclave**, the conclave invited and highlighted the top Indian brands and leaders for their contribution to making the Indian economy resilient and strong during the pandemic years and beyond.

The occasion was graced by dignitaries including **Shri. Fugzon Singh Kulaste**, Minister of State, Ministry of Steel and Rural Development (GOI), **Mr. Kabir Belli**, International Actor and Author, **Mr. Sameep Shastri**, Chairman – IIGL, and President – CYL, **Mr. Vinit Goenka**, Spokesperson – BJP (Delhi), and **Laxmi Narayan Tripathi J**, Acharya MahaMandaleswar, Kinnar Akhada, and Transgender Rights Activist. The guests were presented with the **LEADER OF HOPE** citation for their respective contributions to society, youth empowerment, and business.

The Conclave was centered around **“Embracing Change – The New Normal”** and was marked with insightful keynotes, power-packed panel discussions, and a celebration of Indian brands and leaders. The conclave brought together the top Indian brands and leaders on a common forum to discuss and highlight their strategic initiatives, sustainability practices, and contributions in various industrial and social sectors. The associate partner of the conclave was ZOH0 Corporation & NGO Partner iCAN (Cancer Care initiative by The Brand Story).

The day saw leading brands and leaders being felicitated and awarded for their achievements under various categories.

<p><b>INDIA'S ICONIC BRAND 2022</b></p> <p>Flamingo (Ascend Meditech) BSE Limited Embassy Property Developments Pvt Ltd Fenesta Building Systems Indofil Industries Limited Tata Shaktree The Bhawanipur Education Society College Dazzle Sportswear (RISING STAR)</p>	<p><b>MOST TRUSTED BRAND OF THE NATION 2022</b></p> <p>Amadeus Labs Evolis Card Printer India Pvt Ltd. Fortinet Technologies India The Narayana Group Emirates Logistics India Shahnaz Husain</p>	<p><b>INDIA'S MOST ADMIRABLE BRAND 2022</b></p> <p>Aditya Educational Institutions MM Forgings Limited PNB MetLife India Insurance Co. Ltd. StockEdge Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) Rapido (RISING STAR)</p>	<p><b>INDIA'S TOP BRAND: THE LEADERS WHO GOT AWARDED FOR THEIR UNPARALLELED CONTRIBUTION TO BUSINESS, AND SOCIETY 2022</b></p> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td><b>Rajiv Mistry</b>, Founder &amp; MD, Ascend Meditech Ltd.</td> <td><b>Jayant Gundewar</b>, Executive Director Advance Solutions (India &amp; SAARC) – IngramMicro</td> </tr> <tr> <td><b>Dibyayoti Pattanaik</b>, Director, Annapurna Finance Pvt. Ltd.</td> <td><b>Amitabh Bharghalla</b>, Founder, Health2Hygiene</td> </tr> <tr> <td><b>Ashish Srivastava</b>, MD &amp; CEO, PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.</td> <td><b>Umesh Pawar</b> Senior HR Leader</td> </tr> <tr> <td><b>Yugal Kishore Sharma</b>, CEO, ONEOTT ENTERTAINMENT Limited</td> <td><b>Ankit Jhamb</b>, Chief Learning Officer - Grant Thornton Bharat &amp; Author</td> </tr> <tr> <td><b>Deep Malhotra</b>, Chairman &amp; MD, Oasis Group</td> <td><b>Praveen Srivastava</b>, Chief of Marketing &amp; Sales, Branded Products &amp; Retail – FP, Tata, Steel</td> </tr> <tr> <td><b>Santosh Sharma</b>, Founder &amp; CEO, BookMyNet</td> <td><b>Amit Thapliyal</b>, VP, PeopleStrong</td> </tr> <tr> <td><b>Ganesh Ramamurthy</b>, MD, Evolis Card Printer India Pvt Ltd.</td> <td><b>Monish Salhotra</b>, Founder EBTL &amp; Ligero Systems</td> </tr> <tr> <td><b>Vidyashankar Krishnan</b>, Vice Chairman &amp; MD, MM Forgings Limited</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Rajiv Mistry</b> , Founder & MD, Ascend Meditech Ltd.	<b>Jayant Gundewar</b> , Executive Director Advance Solutions (India & SAARC) – IngramMicro	<b>Dibyayoti Pattanaik</b> , Director, Annapurna Finance Pvt. Ltd.	<b>Amitabh Bharghalla</b> , Founder, Health2Hygiene	<b>Ashish Srivastava</b> , MD & CEO, PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	<b>Umesh Pawar</b> Senior HR Leader	<b>Yugal Kishore Sharma</b> , CEO, ONEOTT ENTERTAINMENT Limited	<b>Ankit Jhamb</b> , Chief Learning Officer - Grant Thornton Bharat & Author	<b>Deep Malhotra</b> , Chairman & MD, Oasis Group	<b>Praveen Srivastava</b> , Chief of Marketing & Sales, Branded Products & Retail – FP, Tata, Steel	<b>Santosh Sharma</b> , Founder & CEO, BookMyNet	<b>Amit Thapliyal</b> , VP, PeopleStrong	<b>Ganesh Ramamurthy</b> , MD, Evolis Card Printer India Pvt Ltd.	<b>Monish Salhotra</b> , Founder EBTL & Ligero Systems	<b>Vidyashankar Krishnan</b> , Vice Chairman & MD, MM Forgings Limited	
<b>Rajiv Mistry</b> , Founder & MD, Ascend Meditech Ltd.	<b>Jayant Gundewar</b> , Executive Director Advance Solutions (India & SAARC) – IngramMicro																		
<b>Dibyayoti Pattanaik</b> , Director, Annapurna Finance Pvt. Ltd.	<b>Amitabh Bharghalla</b> , Founder, Health2Hygiene																		
<b>Ashish Srivastava</b> , MD & CEO, PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	<b>Umesh Pawar</b> Senior HR Leader																		
<b>Yugal Kishore Sharma</b> , CEO, ONEOTT ENTERTAINMENT Limited	<b>Ankit Jhamb</b> , Chief Learning Officer - Grant Thornton Bharat & Author																		
<b>Deep Malhotra</b> , Chairman & MD, Oasis Group	<b>Praveen Srivastava</b> , Chief of Marketing & Sales, Branded Products & Retail – FP, Tata, Steel																		
<b>Santosh Sharma</b> , Founder & CEO, BookMyNet	<b>Amit Thapliyal</b> , VP, PeopleStrong																		
<b>Ganesh Ramamurthy</b> , MD, Evolis Card Printer India Pvt Ltd.	<b>Monish Salhotra</b> , Founder EBTL & Ligero Systems																		
<b>Vidyashankar Krishnan</b> , Vice Chairman & MD, MM Forgings Limited																			
<p><b>INDIA'S LEADING BRAND 2022</b></p> <p>All Seasons BookMyNet DOLO 650 ONEOTT ENTERTAINMENT LTD. (OIL) Pathkind Diagnostics Pvt Ltd. NEST-In, Tata Steel Coco Dry Fruits Oaken Glow (RISING STAR)</p>	<p><b>HER POWER: HONORING THE WOMEN ACHIEVERS OF THE NATION 2022</b></p> <p><b>Dr. Grace Pinto</b>, Managing Director, Ryan International Group of Institutions <b>Shahnaz Husain</b>, Founder, Chairperson &amp; Managing Director - Shahnaz Husain Group <b>Geetha Nagpal</b>, Vice-Chairperson, Krapanidhi Group of Institutions <b>Richa Singh</b>, Managing Director (India and the Middle East) Natural Diamond Council <b>Shweta Rohira</b>, Youth Icon &amp; Actor</p>	<p><b>INDIA'S GREATEST WORKPLACE 2022</b></p> <p>Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) PAYTM VAIRO</p> <p><b>LEADER OF HOPE 2022</b></p> <p><b>Zainab Patel</b>, Chief Inclusion and Diversity, Pernod Ricard India <b>Vinkesh Gulati</b>, President- Federation of Automobile Dealers Association (FADA) <b>Shibani Kashyap</b>, Youth Icon, Singer and Composer <b>Abhijit Pati</b>, CEO and Director of Bharat Aluminium Company Limited (BALCO)</p> <p><b>SOCIAL IMPACT AWARD 2022</b></p> <p>Uttez Digital India</p>	<p><b>YOUNG LEADER AWARD (40 UNDER 40) 2022</b></p> <p><b>Gomathi. S.</b>, Co-founder &amp; CEO, AHAGURU Education Technology Pvt Ltd. <b>Nikhil Chaudhan</b>, Motivational Speaker &amp; Trainer</p>																

The attendees and media appreciated the conclave for initiating the conversation on **“Embracing the change”** for brands and leaders and bringing them on a common platform.

The Brand Story, thanked all the brands and leaders for coming together to honor the flag-bearers of the India Growth Story. They also expressed confidence in the India Growth Story and announced the upcoming **Asian Brand and Leadership Conclave -2022 (Dubai)**.

<b>Publication : The Hindu</b>	<b>Edition : Mumbai</b>
<b>Date : May 30, 2022</b>	<b>Page: 12</b>

<b>Life insurance term plan premium</b>			
<b>Male: 30 Years, Sum Insured - ₹1 crore, Cover up to - 70 Years</b>			
<b>Insurance company</b>	<b>Plan name</b>	<b>Maximum cover up to (Years)</b>	<b>Annual premium ₹</b>
LIC OF INDIA	Tech Term <sup>^</sup>	80	14,122
Aditya Birla Capital	Life Shield Plan	85	12,998
Aegon Life	iTerm Insurance Plan	100	9,114
Bajaj Allianz	Smart Protect Goal	85	10,911
Bharti AXA	Premier Protect Plan	75	11,092**
Canara HSBC OBC Life	iSelect Star Term Plan	99	11,605
HDFC Life	Click2Protect Plus	85	12,601
ICICI Prudential	iProtect Smart	99	15628
India First Life	e-Term Plan	80	8,260
Kotak Life Insurance	Kotak e-Term Plan	75	9,558
Max Life insurance	Smart Term Plan	85	11,800***
PNB Met Life	Mera Term Plan Plus	99	12,272
Reliance Nippon Life	Digi Term	80	11,012
SBI Life	eShield	80	15,070
TATA AIA Life	Maha Raksha Supreme	100	12,980

<sup>^</sup>Maximum policy term is 40 years | <sup>\*\*</sup>Bharti AXA coverage up to 65 years for age 30 years  
<sup>\*\*\*</sup>Max Life offers additional 5% discount for first year

**ONLINE**



No.	Publication/Portal	Headline	Date
1.	Mint	<a href="#">What the pandemic taught Tarun Chugh of Bajaj Allianz Life</a>	May 02, 2022
2.	The Hindu	<a href="#">LIC raises ₹5,627 crore from anchor investors led by domestic institutions</a>	May 03, 2022
3.	The Pioneer	<a href="#">The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) organized</a>	May 05, 2022
4.	The New Indian Express	<a href="#">PNB likely to reduce stake in UTI AMC, Canara HSBC OBC Life in FY23</a>	May 13, 2022
5.	The Economic Times	<a href="#">LIC IPO to list on Tuesday: All you need to know about the issue</a>	May 14, 2022
6.	Mint	<a href="#">PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits. Details here</a>	May 16, 2022
7.	TV9 Hindi	पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया डेंटल हेल्थ इश्योरेंस प्लान, ग्राहकों को मिलेंगी ये नई सुविधाएँ	May 16, 2022
8.	The Free Press Journal	<a href="#">PNB MetLife launches Dental Care Plan with OPD benefits</a>	May 16, 2022
9.	Business World	<a href="#">PNB MetLife To Launch Dental Care Plan With Dental OPD Benefits</a>	May 16, 2022
10	Asia Insurance Post	<a href="#">PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits</a>	May 16, 2022
11	Business Standard	<a href="#">PNB MetLife launches India's first dental health insurance plan</a>	May 17, 2022

12	The Financial Express (Hindi)	<a href="#">Airtel Q4 Results: एयरटेल की आय में दोगुना इजाफा, शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड का ऐलान</a>	May 17, 2022
13	Zee Business	<a href="#">PNB Metlife dental care plan: first ever dental plan in India; from features to benefits, all you need to know!</a>	May 18, 2022
14	Fortune India	<a href="#">Indian Brand Leadership Conclave 2022 by THE BRAND STORY</a>	May 20, 2022
15	ANI News	<a href="#">Indian Brand Leadership Conclave 2022 by THE BRAND STORY</a>	May 21, 2022
16	News18 Hindi	<a href="#">अपने दांतों को दें बीमा की सुरक्षा, PNB MetLife ने लॉन्च किया डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान</a>	May 22, 2022
17	The Times Of India	<a href="#">4 held for duping man of 8.5 lakh</a>	May 26, 2022
18	The Pioneer	<a href="#">XISS to hold its 61st Convocation Ceremony today</a>	May 26, 2022
19	The Pioneer	<a href="#">Women power glitters with Gold at XISS Convocation</a>	May 27, 2022
20	Telugu News18	<a href="#">Business Idea: అద్భుత అవకాశం... కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.5,00,000 వరకు ప్రోత్సాహకం... ఈ వ్యాపారం మీరూ ప్రారంభించవచ్చు ఇలా</a>	Jun 01, 2022

<b>Publication : Mint</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 23, 2022	Headline: <a href="#">What the pandemic taught Tarun Chugh of Bajaj Allianz Life</a>



### ***What the pandemic taught Tarun Chugh of Bajaj Allianz Life***

Tarun Chugh, MD and CEO of the insurance company Bajaj Allianz Life, on working with agility, what he learns from other leaders and CEOs, and more



Tarun Chugh likes to listen to Bollywood music as a way to unwind. (Bajaj Allianz Life)



<b>Publication : The Pioneer</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 05, 2022	Headline: <a href="#">The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) organized</a>



## The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) organized

Thursday, 05 May 2022 | Staff Reporter | Bhopal



SHARE



To identify the top brands in various categories and recognising them for their significant contributions to making India stronger, The Brand Story organized The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) at ITC Sheraton, New Delhi.

On the gracious occasion, the Honourable Minister of State, Ministry of Steel and Rural Development, Government of India Faagan Singh Kulaste attended the event as the chief guest in the presence of other prominent attendees including Kabir Bedi, International Actor, and Author, Mr. Sameep Shastri, Chairman - Indian Institute of Governance & Leadership, and President - Confederation of Young Leaders, Vinit Goenka, Spokesperson -BJP Delhi Pradesh, and Author, and Laxmi Narayan Tripathi, Acharya Maha Mandleshwar, Kinnar Akhada, and Transgender Rights Activist made the grand evening even more special.

With a conscious theme "Embracing Change - The New Normal?" The Indian Brand and Leadership Conclave (2022) proved to be an idle venue with insightful keynotes, power-packed panel discussions, and a celebration of Indian brands and leaders.

Some of the prominent brands present during the conclave included Flamingo, BSE, Embassy Property Developments, Fenesta Building Systems, Indofil Industries, Tata Shaktee, The Bhawanipur Education Society College, MM Forging, PNB Metlife, StockEdge, BALCO, Oasis Group (All Seasons), DOLO 650, ONEOTT Entertainment, Bookmyjet, Pathkind Diagnostics, NEST-In (Tata Steel), Amadeus Labs, Evolis Card Printer India, Fortinet, The Narayana Group, Emirates Logistics India, Dazzle Sportswear, PAYTM, Vajro, Rapido, Penrod Ricard (Oaken Glow) and Coco Dry Fruits.

<b>Publication :</b> The New Indian Express	<b>Edition :</b> Online
Date : May 13, 2022	Headline: <a href="#">PNB likely to reduce stake in UTI AMC, Canara HSBC OBC Life in FY23</a>

## PNB likely to reduce stake in UTI AMC, Canara HSBC OBC Life in FY23

*The bank holds 23% in Canara HSBC OBC Life Insurance and 15% in UTI Mutual Fund.*



Published: 13th May 2022 10:53 AM | Last Updated: 13th May 2022 10:53 AM

🔍 | A+ A A-



Punjab National Bank (Photo | EPS)

**By Express News Service**


Punjab National Bank (PNB) is planning to sell a part of its stakes in UTI Mutual Fund and Canara HSBC OBC Life Insurance in 2022-23 as part of its non-core asset monetisation plan, MD and CEO of the bank Atul Kumar Goyal said in an interaction with the media on Thursday.

<b>Publication : The Economic Times</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 14, 2022	Headline: <a href="#">LIC IPO to list on Tuesday: All you need to know about the issue</a>

# THE ECONOMIC TIMES

## LIC IPO to list on Tuesday: All you need to know about the issue

ETMarkets.com | 14 May 2022, 05:17 PM IST



<b>Publication : Mint</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 16, 2022	Headline: <a href="#">PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits. Details here</a>



### **PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits. Details here**



Picture for representation: PNB MetLife's new Dental Care Plan will help customers manage their dental health and ensure they do not have to dive into their savings (Mint)

1 min read . Updated: 16 May 2022, 12:38 PM IST

**Livemint**

<b>Publication : TV9 Hindi</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 16, 2022	Headline: <a href="#">पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ग्राहकों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं</a>



पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ग्राहकों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं



Dental Health Insurance Plan (Photo-Podir)

इस प्लान में महज 3,006 रुपये में 50,000 रुपये तक का कवर पा सकते हैं। दांत से जुड़े इलाज के लिए ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का कवर दिया जाएगा। बिना अस्पताल में भर्ती हुए इस खर्च का क्लेम किया जा सकता है और प्लान का फायदा उठाया जा सकता है।

Publication : The Free Press Journal	Edition : Online
Date : May 16, 2022	Headline: <a href="#">PNB MetLife launches Dental Care Plan with OPD benefits</a>

**THE FREE PRESS JOURNAL**

### PNB MetLife launches Dental Care Plan with OPD benefits

Data from Allied Market Research indicates that the Indian dental insurance industry would be worth \$3.65 billion by 2030

FPJ Web Desk | Updated: Monday, May 16, 2022, 12:24 PM IST



*Milkar life aage badhaein*

**Go Global From Local**

Reach 147M+ active buyers to 190+ markets across the world. Sell globally with eBay.

**RECENT STORIES**

Mumbai: Latest Updates - Mumbra Police summons Nupur Sharma on June 22 over remarks against Prophet



Navi Mumbai: Bicycle thief held from Panvel, 25 stolen bikes



This is the first insurance plan in India that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health, it said |



Publication : Business World	Edition : Online
Date : May 16, 2022	Headline: <a href="#">PNB MetLife To Launch Dental Care Plan With Dental OPD Benefits</a>

## PNB MetLife To Launch Dental Care Plan With Dental OPD Benefits

[Like](#)

*The Dental Care Plan will help customers manage their dental health and ensure they do not have to dive into their savings or reduce their essential spending in order to make space for dental treatment.*



Photo Credit :



<b>Publication :</b> Asia Insurance Post	<b>Edition :</b> Online
Date : May 16, 2022	Headline: <a href="#">PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits</a>

## PNB MetLife launches Dental Care Plan with dental OPD benefits

by AIP Online Bureau | May 16, 2022 | Health, Indian News, Life, Workplace/Employee Benefits | 0 comments

Data from Allied Market Research indicates that the Indian dental insurance industry would be worth \$ 3.65 billion by 2030

New Delhi:

PNB MetLife India Insurance launched the PNB MetLife Dental Care Plan, the first insurance plan in India that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health.

To provide convenience to its customers, PNB MetLife has tied up with more than 340+ dental clinics, including Clove Dental and Sabka Dentist, two of India's largest dental clinic chains with clinics across key cities in India, where policyholders can enjoy the full value of their benefits.

<b>Publication :</b> Business Standard	<b>Edition :</b> Online
Date : May 17, 2022	Headline: <a href="#">PNB MetLife launches India's first dental health insurance plan</a>

## Business Standard

### PNB MetLife launches India's first dental health insurance plan

This is the first insurance plan in India that covers fixed-benefit outpatient expenses and provides financial assistance with costs related to overall dental health

**Topics**  
PNB MetLife Insurance | Health Insurance | Insurance companies

Press Trust of India  
Last Updated at May 17, 2022 01:33:57

[f](#) [t](#) [in](#) [+](#) [z](#) [🔍](#) [📧](#) [📧](#) [📧](#) [📧](#)

Follow us on [Google News](#)

**Reach 1000s of Opted-In Customers on WhatsApp** [Start Free Trial](#)



Publication : The Financial Express (Hindi)	Edition : Online
Date : May 17, 2022	Headline: <a href="#">Airtel Q4 Results: एयरटेल की आय में दोगुना इजाफा, शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड का ऐलान</a>

## Airtel Q4 Results: एयरटेल की आय में दोगुना इजाफा, शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड का ऐलान

Airtel Results: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल के लिए मार्च तिमाही बहुत शानदार रहा और इसकी आय दोगुना बढ़ गई.

Written by [FE Online](#)

May 17, 2022 5:25:02 pm



नतीजे से पहले आज एयरटेल के शेयरों में शानदार खरीदारी का रुझान दिखा.

<b>Publication :</b> Zee Business	<b>Edition :</b> Online
<b>Date :</b> May 18, 2022	<b>Headline:</b> <a href="#">PNB Metlife dental care plan: first ever dental plan in India; from features to benefits, all you need to know!</a>



## PNB Metlife dental care plan: first ever dental plan in India; from features to benefits, all you need to know!

PNB Metlife has launched a dental care insurance plan which it claims is the first to be in India. The plan which is called a 'PNB Metlife Dental Care Plan' also offers tax benefits to the customers. Here are key features of this plan along with benefits.



PNB MetLife  
**Dental Care Plan**



**"Fixed benefit ranging from Rs 350 and Rs 7500 per procedure up to a sum assured of Rs 50,000," information on the website says. Source: Twitter**

**Written By:** ZeeBiz WebTeam | PNB MetLife has launched a dental care insurance plan which it claims is the first to be in India. The plan which is called a 'PNB Metlife Dental Care Plan' also offers tax benefits to the customers. Here are key features of this plan along with benefits.

**Edited By:** Shivendra Kumar

**Updated:** Wed, May 18, 2022 03:03 pm

**Now On:** ZeeBiz WebDesk | The Dental Care Plan is available at the minimum price of Rs 3006 and offers benefits worth Rs 50000 on dental procedures and treatment without the need for overnight hospitalization, the company website says.

<b>Publication : Fortune India</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 18, 2022	Headline: <a href="#">Indian Brand Leadership Conclave 2022 by THE BRAND STORY</a>

## Indian Brand Leadership Conclave 2022 by THE BRAND STORY

By FORTUNE INDIA EXCHANGE - SPONSORED FEATURE, May 20, 2022



<b>Publication :</b> ANI News	<b>Edition :</b> Online
Date : May 21, 2022	Headline: <a href="#">Indian Brand Leadership Conclave 2022 by THE BRAND STORY</a>



## Indian Brand Leadership Conclave 2022 by THE BRAND STORY

ANI | Updated: **May 21, 2022 16:17 IST**

New Delhi (India), May 21 (ANI/PNN): THE BRAND STORY recently organized "Indian Brand Leadership Conclave 2022" at Sheraton, New Delhi; the Conclave was woven around the contemporary theme - "Embracing Change - The New Normal," and the evening was marked by insightful keynotes, panel discussions, and the celebration of Indian brands and leaders.

The Conclave was graced by an impeccable and unparalleled line-up of guests from various industries. Chief Guest Faggan Singh Kulaste, Minister of State, Ministry of Steel and Rural Development (GOI); the Guests of Honour Kabir Bedi (International Actor and Author), Sameep Shastri (Chairman, IIGL and President, CYL). Vinit Goenka (Spokesperson (BJP- Delhi State) and Author), Laxmi Narayan Tripathi (Acharya Maha Mandaleshwar, Kinnar Akhaada, and Transgender Rights Activist). The guests were presented with the 'LEADER OF HOPE' citation for their respective contributions to society, youth empowerment, and business.

Publication : News18 Hindi	Edition : Online
Date : May 22, 2022	Headline: <a href="#">अपने दांतों को दें बीमा की सुरक्षा, PNB MetLife ने लॉन्च किया डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान</a>



## अपने दांतों को दें बीमा की सुरक्षा, PNB MetLife ने लॉन्च किया डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान



पीएनबी मेटलाइफ ने अपने डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए देश की टॉप डेंटल क्लिनिक श्रृंखला 'क्लोव डेंटल' और 'सबका डेंटिस्ट' के साथ करार किया है.

पीएनबी मेटलाइफ डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आप केवल 3,006 रुपये में, बिना किसी परेशानी के रात भर अस्पताल में भर्ती होने के साथ दांतों के उपचार पर 50,000 रुपये तक के फायदा उठा सकते हैं.

• NEWS18HINDI

• LAST UPDATED : MAY 22, 2022, 14:02 IST



WRITTEN BY : [Shriram Sharma](#)

**PNB MetLife Dental Health Insurance:** तेजी से बदलती जीवन शैली ने सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर डाला है. तमाम नई-नई बीमारियां पैदा हो गई हैं. ऊपर से बढ़ती महंगाई के चलते ठीक से ईलाज करना भी दुष्कर हो गया है. महानगरों में मेडिकल खर्च ही इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब किसी ठीक से हॉस्पिटल में ईलाज कराना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है. बुखार के चलते अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो एक दिन का खर्चा 10,000 रुपये के आसपास बैठता है. ऐसे में इंश्योरेंस बहुत बड़े सहारे के रूप में हमारी मदद करता है.

Publication : The Times Of India	Edition : Online
Date : May 26, 2022	Headline: <a href="#">4 held for duping man of 8.5 lakh</a>

## THE TIMES OF INDIA

### 4 held for duping man of 8.5 lakh

TNN / May 26, 2022, 08:26 IST

**ARTICLES**

-  4 held for duping man of 8.5 lakh
-  Here's how tech teams can manage Apache Kafka...
-  F&CC nod to 6L solar light at Japanese Garden
-  Baking workshop held



Chandigarh: The cyber cell arrested four persons from Noida in Uttar Pradesh (UP) for allegedly duping a city resident of Rs 8.5 lakh on the pretext of investing in insurance policies. The police produced the accused before the local court and obtained three-day police remand for further interrogation.

<b>Publication : The Pioneer</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 26, 2022	Headline: <a href="#">XISS to hold its 61st Convocation Ceremony today</a>



## XISS to hold its 61st Convocation Ceremony today

Thursday, 26 May 2022 | PNS | Ranchi



**SHARE**







---











As many as 295 graduating students of batch 2020-22 of Xavier Institute of Social Service (XISS), Ranchi, will be receiving their PGDM certificates during its 61st Convocation Ceremony on Thursday from 4:30 pm onwards.

Ashish Kumar Srivastava, CEO & MD, PNB Metlife India Insurance Company Limited and also a celebrated alumnus of the Institute is the Chief Guest of the ceremony, scheduled to be held at the Fr Herman Rasschaert Memorial Auditorium.

A total of 295 students of Batch 2020-22 will receive their diplomas in the ceremony, where top rank holders from all programmes will be bestowed with 12 gold, 09 silver, 05 bronze medals and 03 cash prizes respectively. Meanwhile, 30 students will also be awarded with Institutional Scholarships worth Rs 9.5 lakhs namely Fr Michael Van den Bogaert SJ Memorial Scholarships for meritorious students of SC/ST category, Fr Michael Albert Windey SJ Memorial Scholarship for meritorious students on the whole open to all, and Fr Louis Francken SJ Memorial Scholarship for overall performance of all categories of students.

The ceremony will see the participation of students from across the country along with their parents and esteemed alumni as well. The ceremony will be telecasted on XISS's Official Youtube Channel -

<b>Publication : The Pioneer</b>	<b>Edition : Online</b>
Date : May 27, 2022	Headline: <a href="#">Women power glitters with Gold at XISS Convocation</a>



## Women power glitters with Gold at XISS Convocation

Friday, 27 May 2022 | PNS | Ranchi



SHARE



Girls outshined boys at the 61st annual convocation of Xavier Institute of Social Service (XISS), Ranchi held today at Fr Herman Rasschaert Memorial Auditorium. The five gold medallist in all five branches are girls. Nishita Dey has been declared topper in Human Resource Management one of the most popular management streams offered by XISS, in Rural Management Riti Shalini Turu is topper, in Information Technology the gold medallist student is Shrishtri Sharma, Sneha Roy is topper in marketing management, while in financial management the topper is Satyapriya Mitra.

Nishita Dey, who has been placed with Vedanta Limited, after receiving the gold medal said, "The zeal within me never allowed me to give up on my efforts. And here I go, receiving the gold medal for the batch. I would like to thank the esteemed institute XISS Ranchi for providing me with all the guidance and support throughout without which I would have never been able to achieve the milestone. I got placed into Vedanta Limited and would like to take the legacy of the institute ahead and devote myself towards the development of the society personally as well as professionally."

Meanwhile, this year 296 students graduated across five programmes comprising 74 students in Human Resource Management, 72 students in Rural Management, 35 students in Information Technology, 58 students in Financial Management and 57 students in Marketing Management respectively. 30 students from across programmes were declared the top rank holders and amongst them 12 gold, 10 silver, 5 bronze medals along with 3 cash prizes were distributed respectively. 31 students were also awarded with Institutional Scholarships worth Rs 9.7 lakhs namely Fr Michael Van den Bogaert SJ Memorial Scholarship for meritorious students of SC/ST category, Fr Michael Albert Windey SJ Memorial Scholarship for meritorious students on the whole open to all, and Fr Louis Francken SJ Memorial Scholarship for overall performance of all categories of students.

Publication : Telugu News18	Edition : Online
Date : Jun 01, 2022	<p>Headline: <a href="#">Business Idea: అద్భుత అవకాశం... కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.5,00,000 వరకు ప్రోత్సాహకం... ఈ వ్యాపారం మీరూ ప్రారంభించవచ్చు ఇలా</a></p>



### Business Idea: అద్భుత అవకాశం... కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.5,00,000 వరకు ప్రోత్సాహకం... ఈ వ్యాపారం మీరూ ప్రారంభించవచ్చు ఇలా



Business Idea: అద్భుత అవకాశం... కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.5,00,000 వరకు ప్రోత్సాహకం... ఈ వ్యాపారం మీరూ ప్రారంభించవచ్చు ఇలా ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

Business Idea | తక్కువ పెట్టుబడితో ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ మంచి వ్యాపార అవకాశాన్ని (Business Opportunity) ఇస్తోంది. రూ.5,00,000 వరకు ప్రోత్సాహకం కూడా ఇస్తోంది.

• NEWS18 TELUGU  
• LAST UPDATED : JUNE 01, 2022, 15:30 IST

f
t
in
wa
te
e

• Santhosh Kumar S

---

సంబంధిత వార్తలు



ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి కేంద్రాలను (PMBJKs) కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేంద్రాల ద్వారా తక్కువ ధరకే పేదలకు నాణ్యమైన మందులు అందిస్తోంది. ఎవరైనా ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. 2022 మే 31 నాటికి దేశంలో 8,735 జన్ ఔషధి కేంద్రాలు (Janaushadhi Kendras) ఉన్నాయి. ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన (PMBJP) ద్వారా 739 జిల్లాలు కవర్ అవుతున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా జన్ ఔషధి కేంద్రాలను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. 2024 మార్చి నాటికి మొత్తం 10,000 జన్ ఔషధి కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.